



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकलित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, तिथिम्बर 7, 1996 (भाद्रपद 16, 1918)  
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 7, 1996 (BHADRAPAD 16, 1918)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate Compilation)

### भाग I—खण्ड 4 [PART-I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 7 तिथिम्बर 1996

अधिसूचना

सं. 564, दिनांक 28 जून 1996—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के अधिकारी और निजी सचिव श्री एम. वी. सूब्या राव, का सूचना और प्रसारण मंत्रालय से स्थानांतरण होने पर उन्हें 21 जून, 1996 (पूर्वाह्न) से मंत्री द्वारा पदत्याग करने या अगला आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, रक्षा मंत्री (श्री मुलायम सिंह यादव) का सहायक निजी सचिव नियुक्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के के. स. आ. में संवर्ग के निम्नलिखित समूह "ग" आशुलिपिकों की नियुक्ति उनके नाम के सामने दर्शाई गई अर्थात् तक या नियमित अधिकारी उवलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निजी सचिव (के. स. आ. सेवा के विधायित श्रेण "क" और "ख") के पदों को तदर्थ अर्थात् से और आगे बढ़ाते हैं।

सर्वश्री

श्री. पी. शीवर, 1-7-96—30-9-96।

श्रीमती सुमन मलिक, 1-7-96—30-9-96।

1-224 GA/96

(3-8-96 को एक दिन के व्यवधान सहित)।

श्रीमती अर्पणा रामास्वामी, 1-7-96—30-9-96।

(2-8-96 को एक दिन के व्यवधान सहित)।

के. एस. मलिक, 1-7-96—30-9-96।

(1-7-96 को एक दिन के व्यवधान सहित)।

केदार नाथ, 1-7-96—30-9-96।

(3-8-96 को एक दिन के व्यवधान सहित)।

पी. वी. मोहन, 1-7-96—30-9-96।

(2-8-96 को एक दिन के व्यवधान सहित)।

डी. एम. कुरियन, 1-7-96—30-9-96।

एस. एस. कटारिया, 1-7-96—30-9-96।

(30-9-96) को एक दिन के व्यवधान सहित)।

अजीत सिंह, 1-7-96—30-9-96।

(25-9-96 को एक दिन के व्यवधान सहित)।

पी. आर. वेकटागिरि, 1-7-96—30-9-96।

(2-9-96 को एक दिन के व्यवधान सहित)।

राजपाल सिंह, 1-7-96—30-9-96।

(1259)

ए. एन. राजपूत, 1-7-96—30-9-96 ।

भणिसर सिंह, 1-7-96—30-9-96 ।

डा. ए. आर. गोयल  
अवर सचिव

सेना मुख्यालय

ए जी शाखा

सं. 565, दिनांक 26 जुलाई 1996—राष्ट्रपति द्वारा स से मु सिविल सेवा तथा स से मु आखिलीय सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को स से मु सिविल सेवा नियमावली 1958 नियम 10 (2) के अधीन 03-11-95 छः महीने की अवधि के लिए अथवा नियमित पदधारी मिलने तक अथवा व्यक्ति के सेवा निवृत्त होने, में से जो भी पहले हो उस सेवा तक सीधे पैरा 2 में दी शर्तों के अधीन सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में सहर्ष नियुक्त किया जाता है और उन्हें उनके नाम के सामने दिए मुख्यालयों/शाखाओं/संगठनों में रखा/तैनात किया जाता है :—

श्री अमरीक सिंह, ए जी/पी एस ।

श्री शिवदान सिंह, एजी/पी एस ।

श्री एस-एस-सैखनल, एजी/पी एस ।

श्री के कण्डू, एजी/डी वी ।

श्री पी के चटनायक, एजी/आर्मी ।

श्री राम कुमार, एजी/पी एस ।

2. ये नियुक्तियां पूर्णतः काम चलाऊ व्यवस्था के रूप में की गई हैं तथा प्रशासनिक कारणों से अथवा नियमित पदधारी उपलब्ध होने पर बिना सूचना दिए समाप्त की जा सकती हैं ।

3. उपर्युक्त पद पर नियमित नियुक्ति होने उसका कोई दावा नहीं होगा न ही नियम 10 (2) के अधीन सिविलियन स्टाफ अधिकारी के रूप में की गई उनकी सेवा वरिष्ठता के लिए गिनी जाएगी ।

(क्यू. एन. जी. शाखा)

राष्ट्रपति सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के निम्नलिखित सिविलियन स्टाफ अधिकारियों को (ग्रुप ए राजपत्रित) सशस्त्र सेना मुख्या. सिविल सेवा नियम 10 (2) 1968 के तहत उनके सामने दी गई तिथियों से छः महीने के लिए या अगले आवेदन जारी होने तक या नियमित पदधारी मिलने तक या स्वयं के सेवा निवृत्त होने तक जो भी पहले हो को सहर्ष जो नियुक्त करते हैं, तथा उन्हें क्यू. एन. जी. शाखा में ही तैनात किया गया है :—

श्री संजय सिन्हा—07-5-96 ।

श्री अजय कुमार—07-5-96 ।

श्री के विजयन—07-5-96 ।

श्री एस. सी. मिश्रा—07-5-96 ।

श्री एस पी वास—07-5-96 ।

श्री पी एस राठौर—07-5-96 ।

श्री आर. के. छाबड़ा—07-5-96 ।

श्री जे. सी. नाहर—07-5-96 ।

श्री सोहन बाल—07-5-96 ।

श्री के. एस. जैन—07-5-96 ।

श्री ए. रामाकृष्णा राव—08-5-96 ।

श्रीमती सीमा माथर—07-5-96 ।।

श्री टंके चन्द—03-5-96 ।

ये नियुक्तियां पूर्ण रूप से अन्तःकालीन व्यवस्था पर आधारित हैं, तथा इन्हें प्रशासनिक कारणों/टप या नियमित पदधारी के मिलने पर बिना नोटिस दिए रद्द किया जा सकता है ।

राष्ट्रपति सहर्ष सहायक श्री डी. एल. शर्मा (वर्ग 'ख' धारा-पत्रित) को 01 जुलाई 96 (पूर्वाह्न) से अगले आवेदन तक सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा में स्थानापन्न सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी (वर्ग 'ख' राजपत्रित) के रूप में नियुक्त करते हैं ।

उपर्युक्त नियुक्तियां न्यायालयों में लिखित वरिष्ठता एवं पदा-न्तित से संबंधित मामलों में निर्णय के परिपालन में यथावश्यक संशोधन के अधीन हैं ।

रत्न. के. राजू

उप मुख्या प्रशासन अधिकारी

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

(डी. आर. डी. एस.)

सं. 566, दिनांक 31 जुलाई 1996—राष्ट्रपति, श्री जान टी. एबाहम को दिनांक 07-04-92 (पूर्वाह्न) से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन [आर. सी. एम. ए. (एयरक्राफ्ट), बंगलौर] में एक/दो वर्ष की परखाधि पर वैज्ञानिक "बी" ("ए" श्रेणी राजपत्रित पद) पर नियुक्त करते हैं ।

राष्ट्रपति, श्री प्रवीर वर्मा को दिनांक 06-02-92 (पूर्वाह्न) से रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन (आर. टी. ओ., कानपुर) में दो वर्ष की परखाधि पर वैज्ञानिक "बी" ("ए" श्रेणी राजपत्रित पद) पर नियुक्त करते हैं ।

डी. जे. एण्डर्यू

सहायक निदेशक (कार्मिक-8)

थल सेना विभाग

सं. 567, दिनांक 30 जुलाई 1996—राष्ट्रपति सहर्ष यथा संबंधित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित नियुक्त करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कर्मचारी

कैप्टन के पद पर

समित कोस (एमडीडीएस) (एम आर-06141गल), ए एम सी, 16 अप्रैल 90, बेलत तथा पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 16 अक्टूबर 89 (इसमें 6 महीने की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो अस्पताल

नियुक्ति के लिए वी गहूँ जा संबन्धित के लिए गिनी जायगी परन्तु उपबान के लिए नहीं मारी जायेगी) (भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 16 मई 92 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहाँ तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है) ।

लेफ्टि के पद पर (परख पर)

फौज मीनुद्दीन हरीश अहमद एमबीबीएस (एम आर-06667के) एएमसी—29 जून 94 ।

टी अजय चक्रवर्ती, एमबीबीएस एम आर-06673एल—29 जून 94 ।

नवीन चौधरी (एम आर-06683पी) एएमसी—29 जून 94 ।

ज. सी. शर्मा  
सर्जन रियर एडमिरल  
अपर महानिदेशक स.से.वि.से

विद्युत एवं यांत्रिक इन्जिनियरी कार

सं. 568, दिनांक 31 जुलाई 1996—राष्ट्रपति श्री राजेश कुमार, अतिस्टेट एग्जिक्यूटिव इन्जिनियर को दिनांक 13 मार्च 1996 (पूर्वाह्न) से एग्जिक्यूटिव इन्जिनियर के पद पर नियुक्त करते हैं ।

रीता चेटर्जी  
अगर सचिव

सं. 569, दिनांक 30 जुलाई 1996—राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को दिनांक 23-3-94 सं. सीनिक शिक्षिता कार से अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और धल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं ।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन के पद पर (परख पर)

शम्भू शर्मा एमबीबीएस (एम एस-11993के), अब (एम आर-06609एल) एएमसी, वेतन तथा पदान्ति के लिए वरिष्ठता 29-4-87 से ।

ज. सी. शर्मा  
सर्जन रियर एडमिरल  
अपर महानिदेशक

सं. 570, दिनांक 30 जुलाई 1996—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पक्का करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि (अब कैप्टन) ए एस मेहन (एम आर-06030एन) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) आर अश्वाल (एम आर-06020के) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) जे एस सान्धू (एम आर-06024ए) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) एस सांधी (एम आर-06050एफ) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) ए आर बासू (एम आर-06076कल्प) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) पी के शर्मा (एम अ 06032 वाई) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) ए जी शर्मा (एम आर-06048 के) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) ए एस शर्मा (एम आर-06078 एफ) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) ए एस शर्मा (एम आर-06028 कल्प) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) एस के सिंह (एम आर-06046 वाई) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) वी लांगार (एम आर-06066 एफ) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) टी एस मोहन (एम आर-06070 पी) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) आर शंकर (एम आर-06080 वाई) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) बी. नमबिधर (एम आर-06072ए) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) ए डी सूब (एम आर-06064 एफ) एएमसी—26 दिसम्बर 89 ।

लेफ्टि (अब कैप्टन) एन सिंह (एम आर-06074-एल), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

ज. सी. शर्मा  
सर्जन रियर एडमिरल  
अतिरिक्त महानिदेशक स.से.वि.से.

सं. 571, दिनांक 31 जुलाई 1996—सफलतापूर्वक प्रोबेशन अधीन पूर्ण होने पर राष्ट्रपति सहर्ष धल सेना अनुदेश 15/79 के अधीन निम्नलिखित आमी दत्त अधिकारी को उसके नाम के सामने लिखी तिथि से पक्का करते हैं :—

सहायक अफसर एस. वी. मीनकांका (डी एस-11820-एम) (एफ-23061—06-4-94 ।

वि. जगन  
विर्गिडियर  
डिप्टी डी जी डी एस

## रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 572, दिनांक 6 अगस्त 1996—राष्ट्रपति सार्वभौमिक निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं :—

मानकीकरण निदेशालय के श्री आर. एल. तिवारी, वैज्ञानिक 'सी' उसी निदेशालय में 01-07-1996 (पूर्वाह्न) से 3700-125-4700-150-5000/- के वेतनमान में स्थानापन्न वैज्ञानिक 'डी' के रूप में।

रक्षा भू-भाग अनुसंधान प्रयोगशाला (डी आई एफ आर) दिल्ली के श्री वी. के. पन्चाल, वैज्ञानिक 'डी' उसी प्रयोगशाला में 01-07-1996 (पूर्वाह्न) से रुपये 4500-150-5700 के वेतनमान में स्थानापन्न वैज्ञानिक 'ई' के रूप में।

निम्नलिखित वैज्ञानिकों को उनके नाम के सामने दशहैं गहर् प्रयोगशाला/स्थापना में 01-7-1996 (पूर्वाह्न) में उसी प्रयोगशाला/स्थापना में उनके नाम के सामने दशहैं गहर् स्थानापन्न वैज्ञानिकों के रूप में और वेतनमान पर :—

नाम, वर्तमान श्रेणी, पदोन्नत श्रेणी, प्रयोगशाला/स्थापना, वेतनमान  
डा. ए. के. सेन एफ जी, डिफेन्स मीट्रियलस एण्ड स्टोरस रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट एस्टाब्लिशमेंट, कानपुर—5900-200-7300/-।

श्री बी. एस. वेदप्रकाश ई एफ, रीजनल सेंटर कोर मिलिटरी एयरबर्दीनेस, (एनडिन्स), बंगलौर—5100-150-6300/-।

श्री जे. कुण्डू ई एफ, रीजनल सेंटर कोर मिलिटरी एयरबर्दीनेस, हैदराबाद—5100-150-6300/-।

श्री जे. के. जैन डी ई, रीजनल सेंटर कोर मिलिटरी एयरबर्दीनेस, पूणे—4500-150-5700/-।

श्री एल. भक्त प्रसाद डी. ई, रीजनल सेंटर कोर मिलिटरी एयरबर्दीनेस, पूणे—4500-150-5700/-।

श्री एस. रामसेशन डी. ई, रीजनल सेंटर कोर मिलिटरी एयरबर्दीनेस, पूणे—4500-150-5700/-।

निम्नलिखित वैज्ञानिक "एफ" को उनके नाम के आगे दशहैं गहर् स्थापना/प्रयोगशाला में दिनांक 01-7-96 (पूर्वाह्न) से 5900-200-7300/- के वेतनमान में स्थानापन्न वैज्ञानिक "जी" के रूप में :—

नाम, स्थापना/प्रयोगशाला

डा. जी. एस. के. राव, एन आर डी ई—बंगलौर।

श्री एन. सिताराम, एन आर डी ई—बंगलौर।

डा. वी. पी. रंगयाह, ए डी ई—बंगलौर।

कार्मिक मूल्यांकन केन्द्र दिल्ली के डा. राम कुमार वैज्ञानिक "एफ" उसी केन्द्र में 01-07-96 (पूर्वाह्न) से रु. 5900-200-7300/- के वेतनमान में स्थानापन्न वैज्ञानिक "जी" के रूप में।

डी. जे. एन्डर्यू  
सहायक निदेशक (कार्मिक)

सं. 573, दिनांक 31 जुलाई 96—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन से मेजर

आई सी-45311 डी आर राणा एमि—09 नवम्बर 95।

आई सी-45291 पी सलहीत्रा, डीक इन्फंट्री—09 नवम्बर 96।

आई सी-45299 बी एम यादव, एमि—09 नवम्बर 95।

आई सी-45310 वी के गडर, इन्ट—09 नवम्बर 95।

आई सी-45314 एन एस डिल्लन डीक इन्फंट्री—08 जनवरी 96।

आई सी-45329 एम के सोनी, ई एम ई—08 जनवरी 96।

आई सी-45343 दीपक वशिष्ठा, ई एम ई—08 जनवरी 96।

आई सी-45298 तारा मिह, डीक इन्फंट्री—08 जनवरी 96।

आई सी-42309 एम एस निकम, आटी—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42366 केतनशाह, सिग्नलस—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42377 एम के चतुर्वेदी, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42395 एम जी बकेश, इन्फंट्री—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42425 अरविन्द वर्मा, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42452 हर्षवरपाल, एजोसी—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42471 जयन्ता मिश्रा, ईएमई—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42491 मी पी संगारा, इन्फंट्री—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42493 एन शानबाग, इन्फंट्री—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42499 आर चौधरी, एएससी—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42505 आर के सिन्हा, एडीआटी—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42516 ओ पी गुनीया, इन्फंट्री—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42522 एम के बासल, सिग्नलस—15 दिसम्बर 95।

आई सी-42532 वी एस प्रभाकर, इन्जीनियर्स—15 दिसम्बर 95।

- आर्ह सी-42598 रींद्रा कुमार, इजीनियर्स—15 दिसम्बर 95 ।
- आर्ह सी-42628 जे एस सोखी, सिग्नलस—15 दिसम्बर 95 ।
- आर्ह सी-42635 एन बी ब्रिशन, इन्ट—15 दिसम्बर 95 ।
- आर्ह सी-42706 अरुण दत्ता, एर्हसी—15 दिसम्बर 95 ।
- आर्ह सी-42720 यू बी गोगट, एर्हसी—15 दिसम्बर 95 ।
- आर्ह सी-42739 ए बी अंश, एर्हसी—15 दिसम्बर 95 ।
- आर्ह सी-42426 संजीव कलोटी, सिग्नलस—15 दिसम्बर 95 ।
- आर्ह सी-42319 अजय दीक्षित, सिग्नलस—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42379 डी बी छत्री, आर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42414 आर राय, इन्फंट्री—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42487 एस सावन्त, एड्डीआर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42503 राजीव शर्मा सिग्नलस—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42515 बी के राय, इन्फंट्री—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42523 एष चतुर्वेदी, एड्डीआर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42524 एस एस जमवाल, इन्फंट्री—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42530 एस के शर्मा, इजीनियर्स—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42534 जे एस अहलावत, इन्फंट्री—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42536 विजयदीप सिंह, एसी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42541 बी एस गुग्गन, इन्फंट्री—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42542 एम के माणे, इन्फंट्री—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42547 डी एस कवहन, आर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42565 पी के एन डोले, आर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42578 जोगिन्द्र सिंह, इंसि—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42581 नीलाम्बर झा, इजीनियर्स—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42593 एम एन शर्मा, आर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42602 सी शकुता, आर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42618 ए आनन्दन, इन्फंट्री—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42624 सुरेश सिंह, सिग्नलस—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42655 बी आर रूखवाहा, इन्फंट्री—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42656 आर के श्रीवास्तव, आर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42658 डी डीगरा, आर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42659 ए आर शर्मा, आर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42662 आर के पालसूले, मैक इन्फंट्री—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42672 पी ए अय्यर, मैक इन्फंट्री—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42673 एन के पापा, आर्टी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-42738 नरेंद्रा सिंह, एर्हसी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ह सी-44458 बी श्रीनिवास, इजीनियर्स—20 दिसम्बर 95 ।
- आर्ह सी-44466 राजीव शर्मा, इजीनियर्स—20 दिसम्बर 95 ।
- आर्ह सी-44470 डी के दत्त, इजीनियर्स—20 दिसम्बर 95 ।
- आर्ह सी-41621 आर एस डॉडयान, आर्टी—17 दिसम्बर 94 ।
- आर्ह सी-43615 एस एस सुहाग, इजीनियर्स—18 दिसम्बर 94 ।
- आर्ह सी-43617 बी रघुनाथ, इंग्रह—18 दिसम्बर 94 ।
- आर्ह सी-43640 प्रादीप मेहता, सिग्नलस—18 जून 95 ।
- आर्ह सी-41598 एस जगपाल, आर्टी—17 दिसम्बर 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ह सी-41634 ए के अहलावत, इन्फंट्री—17 दिसम्बर 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ह सी-41759 ए के सिफदर, सिग्नलस—17 दिसम्बर 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ह सी-41768 नवजोत सिंह, आर्टी—17 दिसम्बर 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ह सी-41780 बी डी असोदकर, इजीनियर्स—17 दिसम्बर 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ह सी-41785 एन के जैना, आर्टी—17 दिसम्बर 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-41828 एस एस मिन्हंस, एईसी—17 दिसम्बर 94  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-41840 अजय मेहता, एईसी—17 दिसम्बर 94  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-41907 आर के बलवावा, सिग्मलस—09 जून  
95 ।

आई सी-41914 प्रीतम बिशनोई, सिग्मलस—09 जून  
95 ।

आई सी-41932 के एस जून, इन्फेन्ट्री—09 जून 95 ।

आई सी-42012 अमित सक्सेना, इन्जीनियर्स—09 जून  
95 ।

आई सी-42035 नीरज जोशी, ए डी आर्टी—09 जून  
95 ।

आई सी-42106 ए समानीया, ए ओ सी—09 जून 95 ।

आई सी-42143 पी यू भास्कर, आर्टी—09 जून 95 ।

आई सी-42178 विजेन्द्र सिंह, ए एस सी—09 जून 95 ।

आई सी-42221 संजय कपिल, ए ओ सी—09 जून 95 ।

आई सी-43995 राजीव जांशी, ई एम ई—14 जून 95 ।

आई सी-41928 पी के हाण्डा, इन्जीनियर्स—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-41939 संजय साहनी, ई एम ई—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-41966 एन बालाकृष्णा, सिग्मलस—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-41968 डी एस मार, आर्टी—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-41983 एम संगुरी, इन्फेन्ट्री—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42078 ए के माथूर, इन्फेन्ट्री—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42082 पंजाब बंशमुख, सिग्मलस—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42101 जे एस शुक्ला, आर्टी—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42120 सी के पारुथी, सिग्मलस—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42158 नरेश पाल, इन्फेन्ट्री—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42170 एस सी कोंवर, आर्टी—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42204 ए बहुखण्डा, ई एम ई—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42206 नरिन्द्र सिंह, इन्फेन्ट्री—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42209 आई पी एस ग्रंवाल, एसी—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42227 गुरमोहन सिंह, सिग्मलस—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42233 डी एस कव्यान, इन्फेन्ट्री—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42240 जी एस सरसिंकर, इन्जीनियर्स—09 जून  
95 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42256 जगदीश शन्ना, ए ई सी—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-42267 एम सी जांशी, ए ई सी—09 जून 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-34614 एन के शर्मा, इन्फेन्ट्री—8 जनवरी 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-37263 टी जे शानमूगम, आर्टी—8 जनवरी 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-37495 पी जयराज, इन्फेन्ट्री—08 जनवरी 95  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-37560 जी सी गिलव्याल, आर्टी—08 जनवरी 94  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-37899 के राजा विक्रमण, सिग्मलस—08 जनवरी  
94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-37916 एस भट्टाचार्य, आर्टी—08 जनवरी 94  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-37844 पी श्री कुमार, इन्जीनियर्स—08 जनवरी  
94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-38976 बी माधव, ए एस सी—08 जनवरी 94  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-37952 एच जी खीर, ए एस सी—08 जनवरी  
94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-37959 आर एस वर्मा, ए ओ सी—08 जनवरी 94  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-39424 कमल कुमार, ए ई सी—08 जनवरी 94  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-40388 डी एन भाटीया, आर्टी—08 जनवरी 94  
(वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

आई सी-38629 आर भारद्वाज, सिग्मलस—08 जनवरी  
94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

## नाम और आर्ष

- आर्ष सी-38634 पीयूष जोशी, ई एम ई—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-39502 एन पी चौहान, इन्फेन्ट्री—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-45141 डी एस बिशट, आर्टी—10 नवम्बर 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-45166 वाई पी सिन्हा, ई एम ई—10 नवम्बर 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-45228 एम एस वाश, इन्फेन्ट्री—25 अप्रैल 95 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-45379 राजीव एंज, मॉक इन्फेन्ट्री—25 अप्रैल 96 ।
- आर्ष सी-40077 बजराम सिंह, ए आर सी—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-40110 ए एस धनशाल, इन्फेन्ट्री—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-40175 नरेश सिंह, इन्फेन्ट्री—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-40188 के डी प्रसाध, आर्टी—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-40221 आर सी वर्मा, आर्टी—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-40236 आर के पांडे ए एम आर्टी—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-40041 पी के शर्मा, ए एस सी—08 जनवरी 96 ।
- आर्ष सी-45040 राहुल अंबजा, —26 जून 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-45090 पी एम रणधाया, इन्फेन्ट्री—26 अप्रैल 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी 45085 कलपीन गिंज, ए सी—26 अप्रैल 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-45107 ए के त्रिपाठी, इन्जीनियर्स—26 अप्रैल 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-42714 एम रमेश, सिग्नल्स—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-42713 एम बेंजोई, ई एम ई—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-42716 आर के श्रीवास्तव, सिग्नल्स—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-40872 ए ब्रालाजी, सिग्नल्स—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-40893 जी प्रसाध, आर्टी—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-41031 सी सुब्रामनीयम, इन्फेन्ट्री—08 जनवरी 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-40780 सुरजीत सिंह, आर्टी—25 दिसम्बर 95 ।
- आर्ष सी-41125 विवेक आवर, इन्जीनियर्स—18 जनवरी 94 ।
- आर्ष सी-41159 एम एस जटकर, ई एम ई—18 जनवरी 94 ।
- आर्ष सी-41417 एन भारगवा, इन्फेन्ट्री—18 जून 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी 41421 एस के सूद, आर्टी—18 जून 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी 41426 वी के शर्मा, ए एस सी—18 जून 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-41243 यू. के. शर्मा, आर्टी—18 जून 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-41288 अजय कुमार, सिग्नल्स—18 जून 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-41386 एन कुमार, इन्फेन्ट्री—18 जून 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-41397 अजय टिक्कर, सिग्नल्स—18 जून 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।
- आर्ष सी-43207 एल मिश्रा, इन्जीनियर्स—19 जून 94 (वेतन और भत्ते के लिए 08 जनवरी 96) ।

## 2/ले. से. सैफ्टनेंट

- ए. कालिया (आर्ष सी-52724) एसी—11 जून 96 ।
- डी. शंराम (आर्ष सी-52725) एसी—11 जून 96 ।
- एन ए चौधरी (आर्ष सी-52726) इन्जीनियर्स—11 जून 96 ।
- एन ए शंकर (आर्ष सी-52727) एसी—11 जून 96 ।
- पी स्नेधिया (आर्ष सी-52728) इन्फेन्ट्री—11 जून 96 ।
- आर्ष एस गिल (आर्ष सी-52729) सिग्नल्स—11 जून 96 ।
- एस कोहली (आर्ष सी-52730) इन्फेन्ट्री—11 जून 96 ।
- ए हूडा (आर्ष सी-52731) इन्जीनियर्स—11 जून 96 ।
- एन सिंघ (आर्ष सी-52732) मॉक इन्फेन्ट्री—11 जून 96 ।
- ए नीरगल (आर्ष सी-52733) इन्फेन्ट्री—11 जून 96 ।

आर एस चन्देले (आइसी-52734) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
टी चौहान (आइसी-52735) ए डी आर्टी—11 जून 96 ।  
के सिंह (आइसी-52736) ए ओ सी—11 जून 96 ।  
एस एम कुशवाहा (आइसी-52737) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
पी डोवाल (आइसी-52738) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
एस एस पृथ्वी (आइसी-52740) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
ए एस सिंह (आइसी-52741) इंफेंट्री—11 जून 96 ।  
डी के अवस्थी (आइसी-52742) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
एम शर्मा (आइसी-52743) इंफेंट्री—11 जून 96 ।  
आइ एस भिंडर (आइसी-52744) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
पी मंगो (आइसी-52746) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
एस पी त्रिपाठी (आइसी-52747) ए एस सी—11 जून 96 ।  
ए एम काकाडे (आइसी-52748) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
जे एस सियाल (आइसी-52749) इंफेंट्री—11 जून 96 ।  
ए मिश्रा (आइसी-52750) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
ए सुनेजा (आइसी-52751) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
एम भुकरेती (आइसी-52752) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
एच एस भादी (आइसी-52753) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
ए चौरसन (आइसी-52754) आर्टी—11 जून 96 ।  
टी एम रंङ्डी (आइसी-52755) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
एस घोवाल (आइसी-52756) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
एस शर्मा (आइसी-52757) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
बी जैकब (आइसी-52758) ए ओ सी—11 जून 96 ।  
ए पी एस पटवाल (आइसी-52759) आर्टी—11 जून 96 ।  
जी सिंह (आइसी-52760) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
ए एम सूर्य (आइसी-52761) एडी आर्टी—11 जून 96 ।  
ए अवस्थी (आइसी-52762) एसी—11 जून 96 ।  
एस भार्गवा (आइसी-52763) इंफेंट्री—11 जून 96 ।  
एस के चौधरी (आइसी-52764) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
डी सिंह (आइसी-52765) ए एस सी—11 जून 96 ।  
एस भट्टागर (आइसी-52766) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
एम सिंह (आइसी-52767) ए ओ सी—11 जून 96 ।  
जी रे (आइसी-52768) ए डी आर्टी—11 जून 96 ।  
एम खरकल (आइसी-52770) आर्टी—11 जून 96 ।  
बी के पूनिय (आइसी-52771) ए ओ सी—11 जून 96 ।

आर रमन (आइसी-52772) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
के साहा (आइसी-52774) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
ओ सिंह (आइसी-52776) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
आर के चौधरी (आइसी-52776) इंफेंट्री—11 जून 96 ।  
ए एस भट्टागर (आइसी-52777) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
जी शर्मा (आइसी-52778) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
आर पवार (आइसी-52779) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
ए एस रावत (आइसी-52780) मैक/इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
आर कुमार (आइसी-52781) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
पी गोदारा (आइसी-52782) इंफेंट्री—11 जून 96 ।  
एम डी कछेन (आइसी-52783) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
पी अश्री (आइसी-52784) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
डी एस गुलरिया (आइसी-52785) ए ओ सी—11 जून 96 ।  
आर भण्डारी (आइसी-52786) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
ए ए जाफरी (आइसी-52787) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
ए धीर (आइसी-52789) आर्टी—11 जून 96 ।  
सी आर इन्वर (आइसी-52790) ए एस सी—11 जून 96 ।  
एस पी मैनकर (आइसी-52791) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
पी कपूर (आइसी-52794) मैक इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
जी शर्मा (आइसी-52795) ए सी—11 जून 96 ।  
बी वैश्व (आइसी-52796) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
जे एस सोखान (आइसी-52797) ए ओ सी—11 जून 96 ।  
जी कपूर (आइसी-52798) ए सी—11 जून 96 ।  
एस बाथना (आइसी-52799) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
एम एस मोहन (आइसी-52800) आर्टी—11 जून 96 ।  
ए चौधरी (आइसी-52801) आर्टी—11 जून 96 ।  
आर ब्रह्मसत (आइसी-52802) ए एस सी—11 जून 96 ।  
ए सिंह (आइसी-52803) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।  
एस कुमार (आइसी-52804) इन्फेंट्री—12 जून 96 ।  
एस ककरेती (आइसी-52805) ए एस सी—11 जून 96 ।  
सी इं रंङ्डी (आइसी-52806) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।



आर कपूर (आइसी-52807) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 पी डंगवाल (आइसी-52809) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 ए चटर्जी (आइसी-52810) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 डी गुप्ता (आइसी-52811) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस एस डांडा (आइसी-52812) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 एस बेंकटेश (आइसी-52813) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 जे दाहिगा (आइसी-52814) ए एस सी—11 जून 96 ।  
 ए श्रीवास्तव (आइसी-52815) आर्टी—11 जून 96 ।  
 ए शर्मा (आइसी-52817) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
 एस सी 'ओ' दामन (आइसी-52818) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 आर एन ठाकूर (आइसी-52819) सिग्नलर्स—11 जून 96 ।  
 एस कुमार (आइसी-52819) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
 एस कुमार (आइसी-52820) आर्टी—11 जून 96 ।  
 आर एस जोशी (आइसी-52822) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस वैशाई (आइसी-52824) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 आर एस नारायणन (आइसी-52825) ए डी आर्टी—11 जून 96 ।  
 आर सहगल (आइसी-52826) ए एस सी—11 जून 96 ।  
 आर शेरर (आइसी-52828) ए एस सी—11 जून 96 ।  
 एस कुमार (आइसी-52829) आर्टी—11 जून 96 ।  
 एस इकम्बरम (आइसी-52830) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 ए कुहिले (आइसी-52833) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 वी के साहू (आइसी-52834) ए डी आर्टी—11 जून 96 ।  
 एस एस बॉस (आइसी-52835) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस साहा (आइसी-52836) ए सी—11 जून 96 ।  
 आर साहू (आइसी-52837) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 पी के कुमार (आइसी-52838) आर्टी—11 जून 96 ।  
 एस शर्मा (आइसी-52839) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 सी जे एंटोनी (आइसी-52840) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस सिंह (आइसी-52841) आर्टी—11 जून 96 ।  
 एस एस जोषी (आइसी-52842) ए सी—11 जून 96 ।  
 पी शर्मा (आइसी-52843) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एन आर रायडू (आइसी-52844) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।

एस आर् एस गिल (आइसी-52846) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 डी के झा (आइसी-52847) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एच सिंह (आइसी-52848) आर्टी—11 जून 96 ।  
 ए चावला (आइसी-52850) ए एस सी—11 जून 96 ।  
 एस धवाइ (आइसी-52851) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस आर गुनिया (आइसी-52852) आर्टी—11 जून 96 ।  
 ए एस भोलें (आइसी-52853) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 वी गुप्ता (आइसी-52855) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 डी वी एस चीगा (आइसी-52856) ए एस सी—11 जून 96 ।  
 जी मुथुरमन (आइसी-52859) ए एस सी—11 जून 96 ।  
 ए पी सिंह (आइसी-52860) ए एस सी—11 जून 96 ।  
 एस एस पकाश (आइसी-52861) ए सी—11 जून 96 ।  
 एस बेंकटरमण (आइसी-52862) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 वी भोरट (आइसी-52863) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस के शणा (आइसी-52864) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एच भण्डारी (आइसी-52865) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 डी कन्नगर (आइसी-52866) आर्टी—11 जून 96 ।  
 एस ठाकूर (आइसी-52867) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 डी एस शर्मा (आइसी-52868) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
 ए अग्रवाल (आइसी-52869) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 ए कुमार (आइसी-52870) ए सी—11 जून 96 ।  
 एन रोशयान (आइसी-52873) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 पी एस बाबुमार (आइसी-52874) मैक/इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एन थापा (आइसी-52875) ए ओ सी—11 जून 96 ।  
 एच सिंह (आइसी-52876) ए ओ सी—11 जून 96 ।  
 वी भाटिया (आइसी-52877) ए ओ सी—11 जून 96 ।  
 एस रावन (आइसी-52878) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 ए के पाण्डेय (आइसी-52879) ए एस सी—11 जून 96 ।  
 एस मन्दन (आइसी-52880) आर्टी—11 जून 96 ।  
 ए पी सिंह (आइसी-52881) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
 वी दत्ते (आइसी-52882) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस सिंह (आइसी-52883) आर्टी—11 जून 96 ।  
 एच सिंह (आइसी-52884) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।

- एस दने (आइसी-52885) आटी—11 जून 96 ।
- एन एस मथी (आइसी-52886) आटी—11 जून 96 ।
- एम कपिल (आइसी-52887) आटी—11 जून 96 ।
- बी काशिक (आइसी-52888) ए ए सी—11 जून 96 ।
- पी कांशल (आइसी-52889) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।
- पी वर्मा (आइसी-52891) ई एम ई—11 जून 96 ।
- के सिंह (आइसी-52892) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- ए ठाकुर (आइसी-52893) ए ओ सी—11 जून 96 ।
- बी लोहरा (आइसी-52894) ए डी आटी—11 जून 96 ।
- आर भदोला (आइसी-52895) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- के के शर्मा (आइसी-52896) आटी—11 जून 96 ।
- एम व्हे पाण्डे (आइसी-52897) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- डी पी एल दन्वाला (आइसी-52898) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- जी आर्य (आइसी-52899) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।
- आर के सिंह (आइसी-52900) ए एस सी—11 जून 96 ।
- सी बी जांशी (आइसी-52901) ए एस सी—11 जून 96 ।
- पी गुप्ता (आइसी-52903) आटी—11 जून 96 ।
- ए जे एम राणा (आइसी-52905) आटी—11 जून 96 ।
- ए चोपड़ा (आइसी-52907) आटी—11 जून 96 ।
- ए मुखर्जी (आइसी-52908) ए सी—11 जून 96 ।
- बी गेभीर (आइसी-52909) ए ओ सी—11 जून 96 ।
- एस कुमार (आइसी-52910) ए एम सी—11 जून 96 ।
- पी सिन्हा (आइसी-52913) आटी—11 जून 96 ।
- बी गुप्ता (आइसी-52914) सिग्नल्स—11 जून 96 ।
- ए लांगर (आइसी-52915) ई एम ई—11 जून 96 ।
- यू एस रावत (आइसी-52916) ए एस सी—11 जून 96 ।
- एस प्राशर (आइसी-52917) एस एस सी—11 जून 96 ।
- सी एच विनोद (आइसी-52918) आटी—11 जून 96 ।
- ए एस राणा (आइसी-52919) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- जी मोहन (आइसी-52920) ए सी—11 जून 96 ।
- एम पारधी (आइसी-52921) ई एम ई—11 जून 96 ।
- आर राणा (आइसी-52923) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- एस सिंह (आइसी-52924) आटी—11 जून 96 ।
- ए कुमार (आइसी-52925) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- बी के सिंह (आइसी-52926) ई एम ई—11 जून 96 ।
- के डी एम झा (आइसी-52927) ए एम सी—11 जून 96 ।
- के रामकृष्णन (आइसी-52928) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- ए रंजन (आइसी-52929) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- बी देवराट (आइसी-52930) आटी—11 जून 96 ।
- जी काशिक (आइसी-52931) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।
- ए आदा (आइसी-52932) सिग्नल्स—11 जून 96 ।
- एम नन्दी (आइसी-52933) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- ए साह (आइसी-52934) ए ओ सी—11 जून 96 ।
- एस राजीव (आइसी-52935) ए डी आटी—11 जून 96 ।
- जे सिंह (आइसी-52936) ई एम ई—11 जून 96 ।
- जे जी जौन (आइसी-52939) ई एम ई—11 जून 96 ।
- एम इंद्रे जोशी (आइसी-52940) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- बी भवर्षना (आइसी-52941) सिग्नल्स—11 जून 96 ।
- डी पी सिंह (आइसी-52942) ई एम ई—11 जून 96 ।
- यू एस आनन्द (आइसी-52943) आटी—11 जून 96 ।
- एन नेगी (आइसी-52944) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- जे कार (आइसी-52945) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।
- के भास्कर (आइसी-52948) ई एम ई—11 जून 96 ।
- ए एस मंगल (आइसी-52949) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- पी चौबे (आइसी-52950) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- एन कुमार (आइसी-52951) ए ओ सी—11 जून 96 ।
- जे सिंह (आइसी-52952) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।
- एस ए गोखले (आइसी-52953) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।
- जे जे जेसू (आइसी-52956) सिग्नल्स—11 जून 96 ।
- एस ए श्रीनिवासन (आइसी-52957) सिग्नल्स—11 जून 96 ।
- एन दत्त (आइसी-52958) ए एस सी—11 जून 96 ।
- एस दामू (आइसी-52959) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- एस के डल (आइसी-52961) आटी—11 जून 96 ।
- जी वर्मा (आइसी-52962) आटी—11 जून 96 ।
- बी चण्डी (आइसी-52963) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।
- बी जोशी (आइसी-52964) आटी—11 जून 96 ।
- डी एस फोगट (आइसी-52965) इन्फेंट्री—11 जून 96 ।

एस सिंह (आइसी-52966) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 आर ओबराय (आइसी-52967) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 एम मनचन्दा (आइसी-52968) आर्टी—11 जून 96 ।  
 ए एस लूथरा (आइसी-52969) एसी—11 जून 96 ।  
 बी महाजन (आइसी-52970) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 के एस माथूर (आइसी-52971) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 जी सिंह (आइसी-52973) एओसी—11 जून 96 ।  
 आर एम सिंह (आइसी-52974) एडी आर्टी—11 जून 96 ।  
 आर एस तिवारी (आइसी-52975) इंफैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस के ठाकूर (आइसी-52976) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एम एस तंवर (आइसी-52977) एओसी—11 जून 96 ।  
 एन जाधव (आइसी-52979) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस के टंडन (आइसी-52980) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 टी उप्पल (आइसी-52982) इंफैंट्री—11 जून 96 ।  
 आर मेहरा (आइसी-52983) एओसी—11 जून 96 ।  
 एम एस सुन्दरम (आइसी-52984) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 बी भारद्वाज (आइसी-52985) एएससी—11 जून 96 ।  
 ए नक्शी (आइसी-52986) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 एम एस चौहान (आइसी-52987) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 जी पी सिंह (आइसी-52988) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस अहलूवालिया (आइसी-52989) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
 पी एस गिल (आइसी-52990) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
 एच एफ रंगवाला (आइसी-52991) एसी—11 जून 96 ।  
 एन सूद (आइसी-52993) एडी आर्टी—11 जून 96 ।  
 एम अग्रवाल (आइसी-52994) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एम चतुर्वेदी (आइसी-52995) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एन चतुर्वेदी (आइसी-52997) एओसी—11 जून 96 ।  
 बी विवेक (आइसी-52998) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
 एस डी बन्डेकर (आइसी-52999) एएससी—11 जून 96 ।  
 एच वेवरस (आइसी-52300) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
 एम सक्सीना (आइसी-53001) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 जी पोल्स (आइसी-53003) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एम पी चटर्जी (आइसी-53004) इंफैंट्री—11 जून 96 ।  
 एम के तिवारी (आइसी-53005) आर्टी—11 जून 96 ।

एस शर्मा (आइसी-53009) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 आर महाजन (आइसी-53010) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 टी एस हाथी (आइसी-53011) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 ए एस नंगी (आइसी-53012) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 जे सिंह (आइसी-53014) इंफैंट्री—11 जून 96 ।  
 डी प्राशर (आइसी-53017) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 टी एस कांग (आइसी-53018) एएससी—11 जून 96 ।  
 पी गौड़ (आइसी-53019) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 वाई एस कपूर (आइसी-53020) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 इ बी सुजय (आइसी-53021) एसी—11 जून 96 ।  
 एच नादर (आइसी-53022) आर्टी—11 जून 96 ।  
 ए कुमार (आइसी-53024) एओसी—11 जून 96 ।  
 डी एस उबास (आइसी-53025) एएससी—11 जून 96 ।  
 एस के तिवारी (आइसी-53026) आर्टी—11 जून 96 ।  
 टी आर दास (आइसी-53027) इंफैंट्री—11 जून 96 ।  
 एस गीतम (आइसी-53028) इंजीनियर्स—11 जून 96 ।  
 ए गुप्ता (आइसी-53029) आर्टी—11 जून 96 ।  
 बी सी काण्णपाल (आइसी-53031) एएससी—11 जून 96 ।  
 एस बोयल (आइसी-53032) आर्टी—11 जून 96 ।  
 ए सेंडी (आइसी-53033) आर्टी—11 जून 96 ।  
 पी टी आर जगन्नाथ (आइसी-53034) एओसी—11 जून 96 ।  
 बी एस गोधरा (आइसी-53036) एसी—11 जून 96 ।  
 ए शर्मा (आइसी-53037) एडी आर्टी—11 जून 96 ।  
 बी सी बोधिवाल (आइसी-53038) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
 ए हास्कोटे (आइसी-53039) एसी—11 जून 96 ।  
 ए पी सिंह (आइसी-53040) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एन सिंह (आइसी-53041) मिक इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एम श्रीवास्तव (आइसी-53042) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 आर एम दिवधेदी (आइसी-53044) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 वी कुमार (आइसी-53046) सिग्नल्स—11 जून 96 ।  
 डी सिंह (आइसी-53047) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 पी एम सिद्धू (आइसी-53048) एएससी—11 जून 96 ।  
 पी पी किशोर (आइसी-53049) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 टी तिवारी (आइसी-53051) इंफैंट्री—11 जून 96 ।  
 टी दास गुप्ता (आइसी-53052) इन्फैंट्री—11 जून 96 ।  
 एम शर्मा (आइसी-53053) एसी—11 जून 96 ।

के एस अड्डा (आइसी-53054) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 एस जैतली (आइसी-53055) एसी--11 जून 96 ।  
 आर सिंह (आइसी-53056) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 आर आरलैंड (आइसी-53057) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 जी रायजाश (आइसी-53059) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 वी के मल (आइसी-53060) आर्टी--11 जून 96 ।  
 ज़ी वी रामाकृष्णा (आइसी-53062) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 आर चक्रवर्ती (आइसी-53063) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 आर के मिश्रा (आइसी-53064) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 आर नायर (आइसी-53065) मैक इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 पी के बहुगुणा (आइसी-53069) एमएफ--11 जून 96 ।  
 आइ एस वेंकटेश्वरलू (आइसी-53082) एइसी--11 जून 96 ।  
 एल के सिंह (आइसी-53089) एइसी--11 जून 96 ।  
 एस माथूर (आइसी-53097) एइसी--11 जून 96 ।  
 ए के भदरिणरथ (आइसी-53102) एमएफ--11 जून 96 ।  
 सी बीचम (आइसी-52745) आर्टी--11 जून 96 ।  
 एन सैगल (आइसी-52773) आर्टी--11 जून 96 ।  
 के सी मोनप्पा (आइसी-52788) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 वी चौधरी (52816) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 एस काशिल (आइसी-52821) आर्टी--11 जून 96 ।  
 टी शर्मा (आइसी-52827) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 एस नटराजन (आइसी-52831) सिग्नल्स--11 जून 96 ।  
 वी मिश्रा (आइसी-52845) आर्टी--11 जून 96 ।  
 वी वी सिंह (आइसी-52849) सिग्नल्स--11 जून 96 ।  
 एस एस शंखावत (आइसी-52871) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 आर सुयल (आइसी-52872) एडी आर्टी--11 जून 96 ।  
 एस थोमस (आइसी-52904) सिग्नल्स--11 जून 96 ।  
 एस खन्ना (आइसी-52922) आर्टी--11 जून 96 ।  
 एस पी सिवारी (आइसी-52938) आर्टी--11 जून 96 ।  
 जी प्रकाश (आइसी-52981) आर्टी--11 जून 96 ।  
 ए एस कवर (आइसी-52996) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 इ जी मधुराज (आइसी-53016) इन्फैंट्री--11 जून 96 ।  
 ए खत्री (आइसी-53035) एडी आर्टी--11 जून 96 ।  
 वी कलूचा (आइसी-52890) सिग्नल्स--11 जून 96 ।  
 वी कुमार (आइसी-52912) आर्टी--11 जून 96 ।

एम चौहान (आइसी-53058)--11 जून 96 (लॉकन वेलन व भर्त 4-8-96 से) ।

रस्यबदेव राय  
 सीएसओ  
 डीएएमएस-8सी

सं. 574, दिनांक 6 अगस्त 1996--थल सेना अनुबंध 37/78, 15/79 के अधीन राष्ट्रपति नियुक्ति पत्रों की प्रवृत्ति करती है :--

नियमित सेना

सैनिक वृत्त चिकित्सा केंद्र

(स्थायी कमीशन)

लॉफ्टनेंट कर्नल से कर्नल के रैंक में

बी. एल. सप्रु (डी आर-10216-पी)--15-02-95 ।

कैप्टन से मेजर के पद पर

नीरखर सिंह (डी आर-10341-आइ)--26-8-91 ।

(अल्पकालीन कमीशन)

लॉफ्टनेंट से कैप्टन के पद पर

संतोष कुमार पी. यू. (डी एस-11791-एच)--27-9-95 ।

वि. जगनाधाशारी

द्विर्गीडयर

डिप्टी डी जी डी एस

सं. 575, दिनांक 30 जुलाई 1996--राष्ट्रपति सहर्ष नियुक्ति पत्रों की प्रवृत्ति करती है :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर से ले. कर्नल के पद पर

एन के विसवास (एम आर-5608-आइ), सेना चिकित्सा केंद्र--30 दिसम्बर 1995 ।

जे सिंह (एम आर-04276-एच), सेना चिकित्सा केंद्र--08 दिसम्बर 1995 ।

ए टी के राव (एम आर-04266-के), सेना चिकित्सा केंद्र--08 दिसम्बर 1995 ।

एस वैशम्पयन (एम आर-05474-एल), सेना चिकित्सा केंद्र--19 अक्टूबर 1995 ।

सर्जन ले. कमान्डर से राजेन कमान्डर के पद पर

इं. जेम्स (एम आर-04860-एल) (75284-जंड), सेना चिकित्सा केंद्र--15 अक्टूबर 1995 ।

## स्क्वाड्रन लीडर से विंग कमाण्डर के पद पर

एस सी अग्रवाल (एम आर-4759-एल) (16891), सेना शिक्षित्सा कोर—03 दिसम्बर 95 ।

एम समद्वर (एम आर-05358-एच) (16366), सेना शिक्षित्सा कोर—08 दिसम्बर 1995 ।

## कैप्टन से मेजर के पद पर

ए एम भेंनन (एम आर-06030-एन), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

आर अग्रवाल (एम आर-06020-के), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

जे एस सन्धु (एम आर-06024-ए), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

एम मांघी (एम आर-06050-एफ), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

ए आर बासु (एम आर-06076-डब्ल्यू), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

पी के शर्मा (एम आर-06032-वाइ), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

ए जी पंडित (एम आर-06048-के), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

आर बरनारवा (एम आर-06078-एफ), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

एम एम गिल (एम आर-06028-डब्ल्यू), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

एस के सिंह (एम आर-06046-वाइ), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

वी लांगर (एम आर-06066-एम), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

टी एस मोहन (एम आर-06070-पी), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

आर शंकर (एम आर-06080-वाइ), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

बी नर्मदियर (एम आर-06072-ए), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

ए डी सूद (एम आर-06064-एफ), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

एन सिंह (एम आर-06074-एल), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

## कैप्टन के पद पर (परख पर)

नवीन चौधरी (एम आर-06683-पी), एएमसी—06 जून 95 ।

एम पी सिंह (एम आर-06564-वाइ), एएमसी—07 जून 94 ॥

## फ्लाइट लैफ्ट (कैप्टन) से स्क्वाड्रन लीडर (मेजर)

(श्रीमती) रघु मदन सिंह (एम आर-06478-एन) (20574), एएमसी—01 दिसम्बर 95 ।

जे. सी. शर्मा  
सर्जन रिपर एडमिरल  
ऊपर महानिदेशक  
स.से.चि.से.

सं. 576, दिनांक 5 अगस्त 1996—राष्ट्रपति सहर्ष निम्न-लिखित पदान्तिता उनके नाम के सामने की गईं तिति से करते हैं :—

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## कप्तान से मूल मेजर के रैंक में

एम आर डांग (बी-403ए), आरवीसी—10-08-95 ।

विदेक चौहान (बी-404एच), आरवीसी—10-08-95 ।

अभय सिंह (बी-406एन), आरवीसी—10-08-95 ।

डी एस भेदाल (बी-418एच), आरवीसी—10-08-95 ।

एस के अग्निहोत्री (बी-421एच), आरवीसी—10-08-95 ।

एन कंनन (बी-427के), आरवीसी—10-08-95 ।

पी बी वेशमरुड (बी-407डब्ल्यू), आरवीसी—16-11-95 ।

सी एस ओझा (बी-408वाइ), आरवीसी—16-11-95 ।

एस के विभक्त (बी-410-डब्ल्यू), आरवीसी—16-11-95 ।

पी के सिंह (बी-422एल), आरवीसी—16-11-95 ।

अरूण शर्मा (बी-424डब्ल्यू), आरवीसी—16-11-95 ।

एस वी एस सुधाकर (बी-429पी), आरवीसी—16-11-95 ।

प्रकाश चन्द  
अवर सचिव

सं. 577, दिनांक 6 अगस्त 1996—राष्ट्रपति निम्न-लिखित पदान्तिता करते हैं :—

## नियमित सेना

## कवचित्त कोर

## स्थायी रिजालदार के रैंक में (धर्म शिक्षक)

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) मोहन नाल शर्मा (जेसी-89975एन)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) बंध प्रकाश पाठक (जेसी-91333एक्स)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) रमेश कुमार (जंसी-97367-एफ)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) धनेन्द्र मिश्रा (जंसी-97364 एन)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) विद्यार सिंह (जंसी-97365-डब्ल्यू)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) कृष्ण स्वरूपधर त्रिवेदी (जंसी-128613एल)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) कपिल देव पान्ढे (जंसी-116061डब्ल्यू)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) राजेन्द्र कौशिक (जंसी-116062वाइ)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) सुरेश चन्द्र तिथारी (जंसी-119691एफ)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) धर्मवीर शर्मा (जंसी-119690-वाइ)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) प्यारा सिंह (जंसी-120473-पी)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) मुरिन्दर सिंह (जंसी-120474 एक्स)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) शिव कुमार शर्मा (जंसी-128614एन)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) राम मेहर शर्मा (जंसी-128612 एच)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) शिव प्रकाश मनोरी (जंसी-128488एम)—01 जनवरी 96 ।

नायब रिजालदार (धर्म शिक्षक) नरेन्द्र प्रसाद पुराहित (जंसी-130087 डब्ल्यू)—01 जनवरी 96 ।

मैकानाहण्ड इन्फर्न्ट्री रीजिमेंट

सूबेदार (लिपिक) के रैंक में

नायब सूबेदार (लिपिक) नरेन्द्र सिंह गुरुंग (जंसी-206638 एम)—01 मई 1996 ।

नायब सूबेदार (लिपिक) एम साधिया (जंसी-206639 पी)—01 जून 1996 ।

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राज कुमार शर्मा (जंसी-189696 एक्स)—01 अप्रैल 1996 ।

नायब सूबेदार सोहन राम (जंसी-211611 वाइ)—01 अप्रैल 1996 ।

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जंसी-181416 के)—01 जून 1996 ।

नायब सूबेदार शिशु पाल सिंह (जंसी-211610 डब्ल्यू)—01 जून 1996 ।

नायब सूबेदार भगत सिंह नेगी (जंसी-206660 एक्स)—01 जून 1996 ।

नायब सूबेदार हुम बहादुर शर्मा (जंसी-206612 एक्स)—01 जून 1996 ।

नायब सूबेदार भंवर सिंह (जंसी-216434 एन)—01 जून 1996 ।

नायब सूबेदार जसपाल सिंह चौधरी (जंसी-206615 एल)—01 जून 1996 ।

नायब सूबेदार विश्वनाथ सिंह (जंसी-219228 पी)—01 जून 1996 ।

नायब सूबेदार सत्यभान सिंह (जंसी-219269 वाइ)—01 जून 1996 ।

नायब सूबेदार करनार सिंह (जंसी-225081 ए)—01 जून 1996 ।

नायब सूबेदार अमर सिंह (जंसी-418022 पी)—01 जुलाई 1996 ।

नायब सूबेदार चतर सिंह सरगदोत (जंसी-418050 एफ)—01 जुलाई 1996 ।

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार भागीरथ (2671419 वाइ अब जंसी-418635 पी)—22 अप्रैल 1996 ।×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार कुंज लाल (3976454 ए अब जंसी-418636 एक्स)—25 मई 1996 ।×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार बीरबल राम (14901349 डब्ल्यू अब जंसी-418637 ए)—17 अप्रैल 1996 ।×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार पार्लेल चन्द्रकान्त शिवगोन्डा (14900104 एन अब जंसी-418638 एच)—20 अप्रैल 1996 ।×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार रविन्दर सिंह (3168796 एक्स अब जंसी-418639 एल)—05 जून 1996 ।×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार राजेन्द्रा सिंह (2871603 एन अब जंसी-418640 ए)—01 जून 1996 ।×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार विष्णु बहादुर मगर (5747545 के अब जंसी-418641 एच)—25 मई 1996 ।×

×(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 मार्च 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार राम सिंह (14900641 वाई अड जेसी-418642 एन) — 17 जून 1996 । ×

× (नायब सूबेदार के पद पर वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अप्रैल 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार भरत सिंह (3975152 एफ अड जेसी-418643 एन) — 10 मई 1996 । ×

× (नायब सूबेदार के पद पर वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अप्रैल 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार जगदीश सिंह शंभूदास (2870965 एफ अड जेसी-418644 डब्ल्यू) — 01 जून 1996 ।

हवलदार मोती सिंह (2871681 एन अड जेसी-418645 वाई) — 01 जून 1996 ।

हवलदार हीर सिंह (2871837 एक्स अड जेसी-418646 एफ) — 07 जून 1996 ।

× (नायब सूबेदार के पद पर वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 1996 से दी जाएगी) ।

आर. जी. हुरेडें  
अवर स्चिब

नं. 578, दिनांक 24 जुलाई 96—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदांतिनियां करते हैं :—

नियमित सेना

सेना चिकित्सा कारे

नायब सूबेदार (नर्सिंग ऑफिसट्रेंट) के रैंक में

हवलदार सुखवीर सिंह (नं. 13934179 एफ, अड जेसी-691565 एन) — 24 जुलाई 1995 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार गुरवच सिंह (नं. 13937038 के अड जेसी-691566 डब्ल्यू) — 17 जनवरी 1996 । \*

हवलदार चन्द्र मोहन सिंह रावत (नं. 13937040 पी अड जेसी-691567 वाई) — 18 मार्च 1996 । \*

हवलदार रघुनाथ (नं. 13937072 एक्स अड जेसी-691568 एफ) — 30 मार्च 1996 । \*

\* (नायब सूबेदार के पद पर वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार धन्येश्वर पन्डारी शर्मा (नं. 13937131 वाई अड जेसी-691569 के) — 02 फरवरी 1996 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 1995 से दी जाएगी) ।

हवलदार सुमेर सिंह नेत्राजन (नं. 13937282 एक्स अड जेसी-691570 वाई) — 13 फरवरी 1996 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार कामिनी भारव म्यामी (नं. 13936927 एफ अड जेसी-691571 एफ) — 23 अप्रैल 1996 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 जनवरी 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार अमल कुमार दास (नं. 13937032 डब्ल्यू अड जेसी-691572 के) — 15 अप्रैल 1996 । \*\*

हवलदार सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (नं. 13937438 के अड जेसी-691573 एफ) — 29 मार्च 1996 । \*\*

\*\* (नायब सूबेदार के पद पर वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार चेलुप्पा वी (नं. 13937529 एन अड जेसी-691574 पी) — 20 अप्रैल 1996 । \*\*\*

हवलदार प्रभु सिंह (नं. 13937575 एफ अड जेसी-691575 एवम) — 24 मई 1996 । \*\*\*

हवलदार दोटे दसाश्रय भाऊ (नं. 13937577 एन अड जेसी-691576 ए) — 23 मई 1996 । \*\*\*

हवलदार मिथिलेश्वर शर्मा (नं. 13937610 ए अड जेसी-691577 एफ) — 17 अप्रैल 1996 । \*\*\*

हवलदार जी सोभानाथन नायर (नं. 13937664 एफ अड जेसी-691578 एन) — 18 अप्रैल 1996 । \*\*\*

\*\*\* (नायब सूबेदार के पद पर वेंतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1996 से दी जाएगी)

हवलदार मिथिलेश्वर प्रसाद सिंह (नं. 13937638 ए अड जेसी-691579 एन) — 12 मई 1996 । ×

हवलदार मिला. चन्व (नं. 13937704 एक्स अड जेसी-691580 एन) — 06 मई 1996 । ×

हवलदार भृगु नाथ पान्डेय (नं. 13937712 डब्ल्यू अड जेसी-691581 एन) — 06 जून 1996 । ×

हवलदार संवरमल भार्गव (नं. 13937752 एक्स अड जेसी-691582 एन) — 25 मई 1996 । ×

हवलदार विश्वनाथ जायसवाल (नं. 13937843 एफ अड जेसी-691583 डब्ल्यू) — 02 मई 1996 । ×

हवलदार गेनपूरी भोस्वाभी (नं. 13937854 एन अड जेसी-691584 वाई) — 15 मई 1996 । ×

हवलदार योगा राम गेलेन (नं. 13937832 ए अड जेसी-691585 एफ) — 03 जून 1996 । ×

हवलदार लन्दन नरसिम्हा (नं. 13937128 वाई अड जेसी-691586 के) — 30 मई 1996 । ×

हवलदार मोहनन के (नं. 13937510 पी अब जंसी-691587 एम)—12 अप्रैल 1996 1X

X (नायब सूबेदार के पद पर वंश और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अप्रैल 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार जगदीश सिंह जोधा (नं. 13937527 एच अब जंसी-691588 पी)—17 मई 1996 1X

हवलदार गुरमीत सिंह (नं. 13937893 एम अब जंसी-691589 एक्स)—13 मई 1996 1X

हवलदार शिव मंगल राम (नं. 13937915 ए अब जंसी-691590 एम)—14 मई 1996 1X

हवलदार इशी कान्त प्रसाद सिन्हा (नं. 13937920 एल अब जंसी-691591 पी)—19 मई 1996 1X

हवलदार सुखबीर सिंह (नं. 13937972 एफ अब जंसी-691592 एक्स)—09 मई 1996 1X

हवलदार स्वपन कुमार प्रमानिक (नं. 13937950 एच अब जंसी-691593 ए)—30 मई 1996 1X

X (नायब सूबेदार के पद पर वंश और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अप्रैल 1996 से दी जाएगी) ।

हवलदार जय राम बल्लभ (नं. 13937966 एन अब जंसी-691594 एल)—08 जून 1996 ।

(नायब सूबेदार के पद पर वंश और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 1996 से दी जाएगी) ।

नायब सूबेदार (एम्बूलेंस असिस्टेंट) के रैंक में

हवलदार विनोद अल्वर्ट भट्टी (नं. 13935558 के अब जंसी-691595 एल)—15 मई 1996 1%

हवलदार हरजिंदर सिंह (नं. 13935724 एम अब जंसी-691596 एन)—09 मई 1996 1%

% (नायब सूबेदार के पद पर वंश और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 1996 से दी जाएगी) ।

सी. पी. जोशी

ले. कर्नल

चि. से. संयुक्त निबन्धक (प्रशिक्षण)

(नीचेना शाखा)

सं. 579, दिनांक 30 जुलाई 96—राष्ट्रपति श्री एम. अन्नाजी राव, सहायक आयुध परि अधिकारी को दिनांक 22 जनवरी 96 (पूर्वाह्न) से उप आयुध पूर्ति अधिकारी ग्रेड-2 के पद पर पदोन्नत करते हैं ।

2. दो दो वर्ष के लिए परस्ताधीन रहेंगे ।

डी. आर. आचार्य

कमांडोर

निबन्धक सिविलियन कार्मिक

वायु सेना

सं. 580, दिनांक 31 जुलाई 96—राष्ट्रपति निर्देशित पदोन्नतियां करते हैं :-

भारतीय वायु सेना

वैमा. इंजी. यांत्रिक शाखा

फ्लाइटिंग आफिसर की फ्लाइट लेफ्टनेंट के रैंक में

ई आर सुरिन्दरन (21080)—09 मार्च 1995 ।

ए के एस दास (21081)—09 मार्च 1995 ।

एन ए बदरीनाथ (21082)—09 मार्च 1995 ।

वी केवराज (21083)—09 मार्च 1995 ।

वी पी बोरोसी (21084)—09 मार्च 1995 ।

आर आर पन्त (21085)—09 मार्च 1995 ।

जी के महेश (21086)—09 मार्च 1995 ।

ई आर एस राजू (21162)—09 मार्च 1995 ।

एस वी चन्ना (21174)—09 मार्च 1995 ।

आर ए शंकर (21196)—09 मार्च 1995 ।

ए के कुमार (21197)—09 मार्च 1995 ।

के ए राव (21175)—09 मार्च 1995 ।

वैमा. इंजी. (इलेक्ट) शाखा

फ्लाइटिंग आफिसर की फ्लाइट लेफ्टनेंट के रैंक में

ए सिंह (20837)—09 मार्च 1995 ।

के सतीश (21089)—09 मार्च 1995 ।

आर मन्जीरा (21098)—09 मार्च 1995 ।

पी आर पाठक (21102)—09 मार्च 1995 ।

पी धार पटिल (21103)—09 मार्च 1995 ।

ए गौर (21104)—09 मार्च 1995 ।

डी के बतुर्वेदी (21105)—09 मार्च 1995 ।

पी एस सेनी (21106)—09 मार्च 1995 ।

ए सिधु (21107)—09 मार्च 1995 ।

पी जी मन्त (21109)—09 मार्च 1995 ।

एस मन्मथेश (21110)—09 मार्च 1995 ।

ए अग्रवाल (21111)—09 मार्च 1995 ।

आर श्रीधास्तथा (21112)—09 मार्च 1995 ।

एफ एफ नाथी (21113)—09 मार्च 1995 ।

भाबू पाल (21114)—09 मार्च 1995 ।

एस चटर्जी (21115)—09 मार्च 1995 ।

पी एस दयानन्द (21116)—09 मार्च 1995 ।



आर हर्षण (21184)—09 मार्च 1995 ।  
 आर के शर्मा (21191)—09 मार्च 1995 ।  
 सी एस चावला (21192)—09 मार्च 1995 ।  
 एम आर तापास्वती (21198)—09 मार्च 1995 ।  
 एम के सिंह (21732)—09 मार्च 1995 ।  
 एम शर्मा (19736)—11 सितम्बर 1992 ।

## शिक्षा शाखा

फ्लाइट ऑफिसर की फ्लाइट लीफ्टनेंट के रैंक में  
 एस के जयसवाल (20210)—16 जून 1995 ।  
 के जी सैयद (20211)—16 जून 1995 ।  
 आर आर माल (20212)—16 जून 1995 ।  
 एस जे शंकर (20213)—16 जून 1995 ।  
 आर डी मोहन (20214)—16 जून 1995 ।  
 एम के वाग्भट्ट (20216)—16 जून 1995 ।  
 एम एस रावत (20217)—16 जून 1995 ।

## उड़ान (पायलट) शाखा

फ्लाइट लीफ्टनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में  
 जे एन शशिधर (17439)—08 जून 1995 ।  
 ओ एम निर्मल कुमार (17440)—08 जून 1995 ।  
 ए एस कालरा (17442)—08 जून 1995 ।  
 ए के मिश्र (17443)—08 जून 1995 ।  
 एस एम माने (17444)—08 जून 1995 ।  
 एस के भा (17445)—08 जून 1995 ।  
 सी श्रीनिवास (17447)—08 जून 1995 ।  
 जी सिंह (17448)—08 जून 1995 ।  
 बी एम रावत (17450)—08 जून 1995 ।  
 एम डब्ल्यू खालाडकार (17451)—08 जून 1995 ।  
 ए के पिल्ले (17452)—08 जून 1995 ।  
 एस रावत (17453)—08 जून 1995 ।  
 एस पी एम शिसीधिया (17454)—08 जून 1995 ।  
 एन एन रेड्डी (17455)—08 जून 1995 ।  
 के एस मिश्र (17457)—08 जून 1995 ।  
 एम एम खण्डवाल (17458)—08 जून 1995 ।  
 डी शर्मा (17459)—08 जून 1995 ।  
 एन तलवार (17461)—08 जून 1995 ।  
 ए गोकुामी (17462)—08 जून 1995 ।

डी के पटनायक (17464)—08 जून 1995 ।  
 पी के शर्मा (17465)—08 जून 1995 ।  
 एम आर रेड्डी (17466)—08 जून 1995 ।  
 ए के मिश्रा (17467)—08 जून 1995 ।  
 बी एम खवालकर (17468)—08 जून 1995 ।  
 टी वी कुलकर्णी (17469)—08 जून 1995 ।  
 चार्ज एम मिश्र (17470)—08 जून 1995 ।  
 ए पी श्रीवास्तवा (17471)—08 जून 1995 ।  
 एम के मित्तल (17472)—08 जून 1995 ।  
 ए वी मोकामी (17473)—08 जून 1995 ।  
 जी के वी के ज्ञी राव (17474)—08 जून 1995 ।  
 जसूत पान सिंह (17475)—08 जून 1995 ।

## प्रशासन शाखा

फ्लाइट ऑफिसर की फ्लाइट लीफ्टनेंट के रैंक में  
 एस पी सिंह (20185)—16 जून 1995 ।  
 जे एस भल्ला (20186)—16 जून 1995 ।  
 आर एन भगदूम (20187)—16 जून 1995 ।  
 आर वी राम किशोर (20188)—16 जून 1995 ।  
 एम अरिवाजगन (20189)—16 जून 1995 ।  
 के एन यादव (20190)—16 जून 1995 ।  
 एस कौल (20191)—16 जून 1995 ।  
 एम वी एन सार्ह (20192)—16 जून 1995 ।  
 वी के शर्मा (20193)—16 जून 1995 ।  
 जे वेंकटेश्वरण (20194)—16 जून 1995 ।  
 एस के जनार्दन (20195)—16 जून 1995 ।  
 श्रीनिवास (20196)—16 जून 1995 ।  
 सी बनर्जी (20197)—16 जून 1995 ।  
 एन वी कुमार (20198)—16 जून 1995 ।  
 के हर्षण (20199)—16 जून 1995 ।  
 डी विश्वनाथन (20200)—16 जून 1995 ।  
 आर के छाबड़ा (20201)—16 जून 1995 ।  
 एस के शाह (20202)—16 जून 1995 ।  
 एम एम जयसिन्हा (20204)—16 जून 1995 ।  
 एम शिवा कुमार (20205)—16 जून 1995 ।  
 आर के एस शिसीधिया (20206)—16 जून 1995 ।  
 एस के जैन (20207)—16 जून 1995 ।

## प्रशासन शाखा

फ्लाइट लिफ्टनेंट की स्वधाङ्गन लीडर के रैंक में  
 एस बद्रयाल (17478)—08 जून 1995 ।  
 आर शर्मा (17479)—08 जून 1995 ।  
 आर वेंकटरामण (17480)—08 जून 1995 ।  
 ए सचचदेव (17481)—08 जून 1995 ।  
 जे जोशी (17482)—08 जून 1995 ।  
 आर के चिट्टा (17483)—08 जून 1995 ।  
 डी मोहब्बे (17484)—08 जून 1995 ।  
 एस चौधरी (17485)—08 जून 1995 ।  
 के के कूण्ड (17486)—08 जून 1995 ।  
 आर् आर रेड्डी (17487)—08 जून 1995 ।  
 ए आर ठक्कर (17488)—08 जून 1995 ।  
 जे पी एस सिद्धू (17489)—08 जून 1995 ।  
 एस एस शिष्ट (17490)—08 जून 1995 ।  
 जे एस बेदी (17491)—08 जून 1995 ।  
 एस के पेंह (17492)—08 जून 1995 ।  
 एस राहिनवाल (17493)—08 जून 1995 ।  
 सी जी एच खान (17494)—08 जून 1995 ।  
 पी एम यादव (17495)—08 जून 1995 ।  
 एस भगवान (17496)—08 जून 1995 ।  
 पी के चन्दोला (17497)—08 जून 1995 ।  
 के आनन्द (17498)—08 जून 1995 ।  
 एम महापात्रा (17499)—08 जून 1995 ।  
 एम शर्मा (17500)—08 जून 1995 ।  
 जे सी चलायिया (17501)—08 जून 1995 ।  
 एम नारायण (17502)—08 जून 1995 ।  
 एस के नैथानी (17503)—08 जून 1995 ।  
 ए एस श्रवण (17504)—08 जून 1995 ।  
 ए एस गिल (17505)—08 जून 1995 ।  
 एस मुरली (17506)—08 जून 1995 ।  
 ए शर्मा (17507)—08 जून 1995 ।  
 डी के यादव (17508)—08 जून 1995 ।  
 एस सी तिवारी (17509)—08 जून 1995 ।  
 के एस मुधाकर (17510)—08 जून 1995 ।  
 आर एस धामून (17511)—08 जून 1995 ।  
 आर के नैथानी (17513)—08 जून 1995 ।

## उडान (पायलट) शाखा

फ्लाइट की फ्लाइट लिफ्टनेंट के रैंक में  
 पी पाठक (20971)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 आर जी कृष्णन (20972)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए विपाठी (20973)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 पी गोंयाल (20974)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 डी यादव (20976)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 जे सिंह (20977)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए भूषण (20978)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 जे नामदीर (20979)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 आर् सिंह (20980)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 वी एस माहीजा (20981)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए सक्सेना (20983)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए पन्त (20984)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एन शर्मा (20985)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 जी ए के माथुर (20986)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 आर प्रेम (20987)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 डी डी सिंह (20989)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 जी के जे रेड्डी (20990)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एस के कश्यप (20991)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 वी चौधरी (20992)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एच सिंह (20993)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एम सिंह (20995)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए चहलान (20997)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 के शानिश्चिया (20998)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए जोशी (20999)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एन रायना (21000)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 वी रावत (21001)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 जी काशी (21002)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 डी के नगर (21003)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 सी एस सेनी (21004)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए के सिंह (21005)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए भल्ला (21006)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 जी एस चौहान (21007)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 वी गौर (21008)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 जे यादव (21009)—15 दिसम्बर 1995 ।

यू कुण्डू (21010)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 जे एस लोचकेता (21011)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए श्रीवास्तवा (21012)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एस मित्रा (21013)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एच एस मालही (21014)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए शर्मा (21015)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए के सिंह (21016)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए के गुप्ता (21017)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एच डी प्रसोत्तम (21019)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एम नीमा (21020)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एस के सैनी (21021)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए रञ्जन (21022)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एस मिश्रा (21023)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एस देवी (21024)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 डी एस के वसन्त (21025)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 सी शारदा (21026)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 पी एस पराहित (21027)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एन पी सिंह (21028)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 आर विद्वानोद्द (21029)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 जे सिंह (21030)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए ज्योति (21031)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एस शर्मा (21032)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एस बाली (21033)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एन देवकट (21034)—15 दिसम्बर 1995 ।

## उडान (नीबगोट) शाखा

फ्लाईंग आफिसर की फ्लाईट लैफ्टनेंट के रैंक में  
 एल के जैन (21036)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 आर एन शक्रावर्धी (21037)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 बी अग्रवाल (21038)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 आर एस भाटिया (21039)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 आर एन कुमारस्वामी (21040)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 डी सूरि (21041)—15 दिसम्बर ।  
 एस के सिंह (21042)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 पी शरवन (21043)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 ए बनर्जी (21044)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 एन हरिकृष्णना (21045)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 बी चन्द्र (21046)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 बी शाह (21047)—15 दिसम्बर 1995 ।

बी ए एनोक्ते (21048)—15 दिसम्बर 1995 ।  
 पी कृष्णापा (21049)—15 दिसम्बर 1995 ।

## वैमा इन्जी (इलैक्ट) शाखा

फ्लाईट लैफ्टनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में  
 ए अग्रवाल (18015)—18 अगस्त 1995 ।  
 आर पी फेडरे (18022)—18 अगस्त 1995 ।  
 एस कान्त (18012)—18 अगस्त 1995 ।  
 एच एस आर के अय्यर (18023)—18 अगस्त 1995 ।  
 ए यू खान (18011)—18 अगस्त 1995 ।  
 डी वास गुप्त (18066)—18 अगस्त 1995 ।  
 ए सरस्वत (18021)—18 अगस्त 1995 ।  
 बी के गोराला (18019)—18 अगस्त 1995 ।  
 आर आर पटनायक (18020)—1995 ।  
 ए के सिंह (18065)—18 अगस्त 1995 ।  
 के बी बी पद्मादाम (18013)—18 अगस्त 1995 ।  
 एस एस बिष्ट (18018)—18 अगस्त 1995 ।  
 के के वर्मा (18017)—18 अगस्त 1995 ।  
 एस सैन (17833)—18 अगस्त 1995 ।  
 आर पुट्टरू (18016)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाईंग आफिसर की फ्लाईट लैफ्टनेंट के रैंक में  
 डी सिंह (बी सी-19763)—04 फरवरी 1993 ।

## प्रशासन शाखा

फ्लाईट लैफ्टनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में  
 एस के मिश्रा (14283)—17 अप्रैल 1995 ।

## उडान (पायलट) शाखा

फ्लाईट लैफ्टनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में  
 जे चौधरी (17171)—17 अप्रैल 1995 ।  
 ए पटवर्धन (17148)—28 मई 1994 ।  
 ए के महरात्रा (16807)—4 जून 1993 ।  
 फ्लाईट लैफ्टनेंट आर कुमार (16640)—07 जुलाई  
 1994 ।

## वैमा इन्जी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाईट लैफ्टनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में  
 फ्लाईट लैफ्टनेंट एन सी चट्टोपाध्य (18417)—18 अगस्त  
 1995 ।  
 फ्लाईट लैफ्टनेंट एस जैन (18005)—18 अगस्त 1995 ।  
 फ्लाईट लैफ्टनेंट एम डी कुमार (18416)—18 अगस्त  
 1995 ।  
 फ्लाईट लैफ्टनेंट ए जी मनोज कुमार (18006)—18  
 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट ए के वर्मा (18063)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एम गुरुजार (17998)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट पी कुमार (18002)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट वी डी सागदियां (18000)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एम एन किकरी (18062)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट डी के डुड्डेजा (18024)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट ए ए गडकारी (17997)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट ए के सिंह (18025)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एस बी पौसे (18007)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एस वी पठानकर (18009)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट आर एस सुब्रह्मनियम (18064)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट ए मूदानिकर (18060)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट के एस करकी (18008)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एस राव (18003)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट डी के लहरी (18001)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट आर पी सिंह (18061)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एस कुमार (18067)—18 अगस्त 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट पी आर ए चवान (18010)—18 अगस्त 1995 ।

#### मौसम विज्ञान शाखा

फ्लाइट लीफ्टनेंट की स्ववाङ्मन लीडर के मूल रैंक में

फ्लाइट लीफ्टनेंट एन सबरवाल (17515)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट टी रामपाल (17516)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एस घोष (17517)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट पी एम नागराज (17518)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एस के जैन (17519)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एम एन बहुगुणा (17520)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट के पाल (17521)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एक्स सक्की (17522)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट गार के याधव (17523)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट आर पी शानधर (17524)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट जे कुमार (17525)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एस धाको (17526)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट पी आर डी पादुजा (17527)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट आर मूकजी (17528)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट के आर रामचन्द्रन (17529)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट पी आर डंग डंग (17530)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट पी रम (17531)—08 जून 1995 ।

फ्लाइट लीफ्टनेंट एस बहरी (17532)—08 जून 1995 ।

#### उडान (पायलट) शाखा

फ्लाइटिंग आफिसर का फ्लाइट लीफ्टनेंट के रैंक में  
एस एस चाह्यान (20996)—15 दिसम्बर 1995 ।

#### वैंग इन्जी (यांत्रिक) शाखा

फ्लाइटिंग आफिसर की फ्लाइट लीफ्टनेंट के रैंक में  
फ्लाइटिंग आफिसर एल वी एन राव (20883)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर पी के अशोक कुमार (20884)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर पी अरांडा (20885)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर कमल धगत (20886)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर के एम चिरियन (20887)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर सी एस परामेश्वरन (20888)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर आर अशोक कुमार (20889)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर बी आर श्रीनिवास (20890)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर वी श्रीराम (20891)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एस श्रीनिवास (20892)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एस नायक (20893)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर पी के उमा शंकर (20894)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एम एस चक्रवर्ती (20895)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर जे बालाकृष्णन (20896)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर पी के गुप्ता (20897)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर ई आर के फानी (20898)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर रजनीश (20899)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर ए के नौटी (20900)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एस सिंह (20901)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर ए धीमन (20903)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर पी जंशी (20904)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एस आर निम्भारकर (20905)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर ई वी संजय (20906)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर जे वीकटर (20907)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर आर कुमार (20937)—12 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एम एस लीलाक्षा (20939)—12 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर डी पिप्ले (20944)—17 सितम्बर 1995 ।

## बीमा इंजी (हलिकट) शाखा

फ्लाइटिंग आफिसर की फ्लाइट लीफ्टनंट के रैंक में

फ्लाइटिंग आफिसर एन रस्तोगी (20908)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एस एस विदम्बर (20909)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर आर डोगरा (20910)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर आर एन मिश्रा (20911)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर आर नायडर (20912)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर जे ए पारिल (20914)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर के सिंह (20915)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर जी एस राय (20916)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एस पौल (20918)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एन एस प्रमोद (20919)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर आर मेहता (20920)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर पी कुमार (20921)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर वाई श्रीनिवास (20922)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर टी आर शिवाराम (20923)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एस वर्गीस (20924)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर आर प्रभु (20925)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एस इवन (20926)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर वी विजय (20927)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर आर सतीश (20928)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइटिंग आफिसर एम शर्मा (20929)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइट ऑफिसर पी ए भदालकर (20931)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइट ऑफिसर के एस पाटिल (20932)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइट ऑफिसर डी अधिकारी (20934)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइट ऑफिसर एस एस पठानिया (20935)—10 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइट ऑफिसर पी सी भट्ट (20936)—11 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइट ऑफिसर आर आर गुप्ता (20938)—14 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइट ऑफिसर जी जोशीपुरा (20940)—16 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइट ऑफिसर पी शर्मा (20945)—17 सितम्बर 1995 ।

फ्लाइट ऑफिसर आर एस बाल (20946)—18 सितम्बर 1995 ।

#### प्रशासन शाखा

फ्लाइट लैफ्टनंट की स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में  
एल एस गठार (बीसी-17251)—24 सितम्बर 1995 ।  
बी पी शर्मा (बीसी-17252)—24 सितम्बर 1995 ।  
जी वी श्री धरम (बीसी-17258)—24 सितम्बर 1995 ।  
आर एस लटकी (बीसी-17260)—24 सितम्बर 1995 ।  
जी पी पात्रा (बीसी-17248)—24 सितम्बर 1995 ।

#### भौसम विज्ञान शाखा

फ्लाइट लैफ्टनंट की स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में  
एम एस द्विवेदी (बीसी-17254)—24 सितम्बर 1995 ।

#### लेखा शाखा

फ्लाइट लैफ्टनंट की स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में  
आर यू किस्कार (बीसी-17253)—24 सितम्बर 1995 ।  
बी ए वैध्या अनस्थान (बीसी-17259)—24 सितम्बर 1995 ।

#### शिक्षा शाखा

फ्लाइट लैफ्टनंट की स्क्वाड्रन लीडर के मूल रैंक में  
एन ई शंकरा (बीसी-17247)—24 सितम्बर 1995 ।  
पी श्रीनिवासन (बीसी-17249)—24 सितम्बर 1995 ।

#### प्रशासन शाखा

(फ्लाइट ऑफिसर की फ्लाइट लैफ्टनंट के रैंक में)  
फ्लाइट ऑफिसर पी. एन. एस. नायर (20579)—15 दिसम्बर 95 ।  
ए. कपूर (20580)—15 दिसम्बर 95 ।  
बी. जे. मामीन (20581)—15 दिसम्बर 95 ।  
एम. राथीनावले (20582)—15 दिसम्बर 95 ।  
ए. कपूर (20583)—15 दिसम्बर 95 ।  
एन. एस. बाजवा (20584)—15 दिसम्बर 95 ।  
एस. आर. सायिल (20585)—15 दिसम्बर 95 ।  
आर. वैकटरमण (20586)—15 दिसम्बर 95 ।  
बी. के. तिवारी (20587)—15 दिसम्बर 95 ।  
के. पी. सौलंकी (20588)—15 दिसम्बर 95 ।  
जे. एस. गुरु (20589)—15 दिसम्बर 95 ।  
पी. एस. बसन्ती (20590)—15 दिसम्बर 95 ।  
एन. के. सिंह (20591)—15 दिसम्बर 95 ।  
यू. मनोज (20592)—15 दिसम्बर 95 ।  
आर. एस. सिद्धीदिया (20593)—15 दिसम्बर 95 ।  
पी. डिसूजा (20594)—15 दिसम्बर 95 ।  
वी. एस. एस. मदान (20595)—15 दिसम्बर 95 ।  
ए. जी. संहना (20596)—15 दिसम्बर 95 ।  
एन. नागराज (20597)—15 दिसम्बर 95 ।  
एस. के. सिंह (20598)—15 दिसम्बर 95 ।  
बी. एस. बाजवा (20599)—15 दिसम्बर 95 ।  
एस. झाका (20600)—15 दिसम्बर 95 ।  
एस. एम. पीटर (20601)—15 दिसम्बर 95 ।  
एम. के. शर्मा (20602)—15 दिसम्बर 95 ।  
एम. बगीस (20603)—15 दिसम्बर 95 ।  
जे. पी. सुरेश (20604)—15 दिसम्बर 95 ।  
बी. कुमार (20605)—15 दिसम्बर 95 ।  
ए. कपूर (20606)—15 दिसम्बर 95 ।  
एन. सी. एम. विष्णु (20608)—15 दिसम्बर 95 ।  
आर. एस. संवरन (20609)—15 दिसम्बर 95 ।  
वी. बंनजी (20610)—15 दिसम्बर 95 ।  
पी. मिश्रा (20611)—15 दिसम्बर 95 ।  
एम. मक्सैना (20612)—15 दिसम्बर 95 ।  
ए. के. सिंह (20613)—15 दिसम्बर 95 ।  
आर. जी. निर्मल (20614)—15 दिसम्बर 95 ।

## सौसभ विज्ञान शाखा

- (फ्लाइट अफसर की फ्लाइट लैफ्टनेंट के रैंक में)  
 के. रस्तोगी (20615)—15 दिसम्बर 95 ।  
 पी. सी. एन. शर्मा (20616)—15 दिसम्बर 95 ।  
 एन. नरेन्द्रा (20617)—15 दिसम्बर 95 ।  
 ए. बैनजी (20618)—15 दिसम्बर 95 ।  
 आर. मलिक (20619)—15 दिसम्बर 95 ।  
 पी. के. गुप्ता (20620)—15 दिसम्बर 95 ।  
 सी. एस. भट्ट (20621)—15 दिसम्बर 95 ।  
 एन. कृष्णला (20622)—15 दिसम्बर 95 ।  
 वी. मेनन (20623)—15 दिसम्बर 95 ।  
 आर. भंडारी (20624)—15 दिसम्बर 95 ।  
 भागवत (20625)—15 दिसम्बर 95 ।  
 एम. मेनन (20626)—15 दिसम्बर 95 ।

## (लेखा शाखा)

- (फ्लाइट अफसर की फ्लाइट लैफ्टनेंट के रैंक में)  
 एस. के. सिंहा (20627)—15 दिसम्बर 95 ।  
 एस. के. सिंह (20628)—15 दिसम्बर 95 ।  
 आर. श्रीवास्तवा (20629)—15 दिसम्बर 95 ।  
 सी. आर्. सैथ्यू (20630)—15 दिसम्बर 95 ।  
 आर. कुमार (20631)—15 दिसम्बर 95 ।  
 एम. के. मेहरा (20632)—15 दिसम्बर 95 ।  
 सी. ए. थॉमस (20633)—15 दिसम्बर 95 ।  
 जे. थॉमस (20634)—15 दिसम्बर 95 ।  
 ए. भटनागर (20635)—15 दिसम्बर 95 ।  
 एस. के. मूर्ति (20636)—15 दिसम्बर 95 ।  
 पी. मेहता (20637)—15 दिसम्बर 95 ।  
 ए. अरोड़ा (20638)—15 दिसम्बर 95 ।  
 ए. नार्थ (20639)—15 दिसम्बर 95 ।  
 पी. काला (20640)—15 दिसम्बर 95 ।  
 एस. के. त्रिपाठी (20641)—15 दिसम्बर 95 ।  
 एस. नाथन (20642)—15 दिसम्बर 95 ।  
 आर. जे. संजीव (20643)—15 दिसम्बर 95 ।

## दीमा इंजी (इलेक्ट) शाखा

- फ्लाइट अफसर की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में  
 सी आर्. मोहन वाम (बी सी-18949)—18 जुलाई 1993 ।

- बी भट्टाचार्य (बी सी-18950)—18 जुलाई 1993 ।  
 डी आर शर्मा (बी सी-18951)—18 जुलाई 1993 ।  
 टी एस चौहान (बी सी-18952)—18 जुलाई 1993 ।  
 एं टी फालकूनन (बी सी-18953)—18 जुलाई 1993 ।  
 बनारसी लाल (बी सी-18954)—18 जुलाई 1993 ।  
 एस सी अरोड़ा (बी सी-18955)—18 जुलाई 1993 ।  
 डी पी हर्ष (बी सी-18956)—18 जुलाई 1993 ।  
 एच एस अहीरा (बी सी-18957)—18 जुलाई 1993 ।  
 आर एस पठानिया (बी सी-18958)—18 जुलाई 1993 ।  
 एन कृष्णामूर्ति (बी सी-18959)—18 जुलाई 1993 ।  
 वी एस परवाना (बी सी-18960)—18 जुलाई 1993 ।  
 आर्. बारनोजा (बी सी-18961)—18 जुलाई 1993 ।  
 टी त्रिपाठी (बी सी-18963)—18 जुलाई 1993 ।  
 के आर कलहोदर (बी सी-18964)—18 जुलाई 1993 ।  
 आर सी भोजवानी (बी सी-18965)—18 जुलाई 1993 ।  
 एन पी शुक्ला (बी सी-18966)—18 जुलाई 1993 ।  
 शोटी लाल (बी सी-18967)—18 जुलाई 1993 ।  
 एम एस शरन (बी सी-18968)—18 जुलाई 1993 ।  
 डी पी सिंहा (बी सी-18969)—18 जुलाई 1993 ।  
 आर प्रसाद (बी सी-18970)—18 जुलाई 1993 ।  
 जी एस दूबे (बी सी-18971)—18 जुलाई 1993 ।  
 एन पी राम (बी सी-18972)—18 जुलाई 1993 ।  
 बी एस नंगी (बी सी-18973)—18 जुलाई 1993 ।  
 एं एस सोच (बी सी-18974)—18 जुलाई 1993 ।  
 सी मंकी (बी सी-18975)—18 जुलाई 1993 ।  
 जी आर शर्मा (बी सी-18976)—18 जुलाई 1993 ।  
 वी के विष्नेई (बी सी-18977)—18 जुलाई 1993 ।  
 के एन प्रसाद (बी सी-18978)—18 जुलाई 1993 ।

## उड़ान (पायलट) शाखा

- फ्लाइट लैफ्टनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में  
 एं पी सिंह (17695)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 पी ऋषि (17696)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 टी पी नन्दा (17697)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 जेड थॉमस (17698)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 श्री सिंह (17699)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एस राजकुमार (17701)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 पी आर सिंह (17702)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एस के बी नायर (17703)—21 दिसम्बर 1995 ।

य. कन्दरा (17704)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एस हास्तक (17705)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 पी एस पतंगे (17706)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एन बी साठे (17708)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 वी शिवारमण (17709)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एम पी वागले (17710)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 पी भारद्वाज (17711)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एस एम वागले (17712)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एस कुमार (17713)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 जी एं पी (17714)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एम सी मिश्रा (17715)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 सुधीर मैनगी (17716)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एस के शर्मा (17717)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 डब्ल्यू ए डिवोटा (17718)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एम शिवारी (17719)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एन संतोष (17720)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एस गुप्ता (17721)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 जी थोमस (17722)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 वी एम रघुनाथ (17723)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एस चन्द्राशेखर (17726)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एम पी रतजीत (17727)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 वी रमेश (17728)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एस अरोड़ा (17729)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 ए मसन्द (17730)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 एस जी के बर्मा (17731)—21 दिसम्बर 1995 ।  
 उड़ान (फायलट) शाखा  
 फ्लाइटिंग आफिसर की फ्लाइट लैफ्टनेंट के मूल रैंक में  
 एस के बर्मा (19895)—17 दिसम्बर 1993 ।  
 एं शंटी (19913)—17 दिसम्बर 1993 ।  
 वी जोशी (20493)—16 दिसम्बर 1994 ।  
 मौसम विज्ञान शाखा  
 फ्लाइटिंग आफिसर की फ्लाइट लैफ्टनेंट के रैंक में  
 आर सिद्धीकी (20208)—16 जून 1995 ।  
 एल उन्नीकृष्णन (20209)—16 जून 1995 ।  
 (प्रशासनिक शाखा)  
 (फ्लाइट लैफ्टनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में)  
 वी. पी. सिंह (बी सी-17304)—24 दिसम्बर 95 ।  
 ए. एन. भौमिक (बी सी-17305)—24 दिसम्बर 95 ।

एम. एम. राय (बी सी-17306)—24 दिसम्बर 95 ।  
 यू. सी. कोहली (बी सी-17308)—24 दिसम्बर 95 ।  
 (शिक्षा शाखा)

(फ्लाइट लैफ्टनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में)  
 सी. एन. थामी (बी सी-17301)—24 दिसम्बर 95 ।

(मौसम विज्ञान शाखा)  
 (फ्लाइट लैफ्टनेंट की स्क्वाड्रन लीडर के रैंक में)

ए. के. चन्दा (बी सी-17300)—24 दिसम्बर 95 ।  
 सी. एस. पुन्धीर (बी सी-17303)—24 दिसम्बर 95 ।

एम. एच. सिद्धिकी  
 स्क्वाड्रन लीडर  
 ए.डी.पी.ओ. 3 डी

#### रक्षा मंत्रालय

सं. 581, दिनांक 28 जून 1996—रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अवर सचिव, श्री एस. एस. घई की अधिवार्षिता की आयु पूरी होने पर उन्हें 30 जून, 1996 से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति होने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के निजी सचिव श्री दर्शन सिंह को 30 जून, 96 (अपराह्न) से स्वेच्छा से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्ति होने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

डा. ए. आर. गोयल  
 अवर सचिव

#### संयुक्त बीजलेख ब्यूरो

सं. 582, दिनांक 1 अगस्त 1996—जे सी बी के बरिष्ठ सुरक्षा प्रणाली अधिकारी-2 श्री प्रताप सिंह (जन्म तिथि 1-8-38) 01-8-96 को 58 वर्ष की निवृत्ति आयु को प्राप्त होने पर दि. 31-7-96 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त तथा दिनांक 1-8-96 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना में स्थानान्तरण किया गया ।

रत्ने के राज  
 उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

#### रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन

सं. 583, दिनांक 1 अगस्त 1996—सेवा निवृत्ति की आयु पर एह्चन के परिणामस्वरूप डा. एस. के. शर्मा, वैज्ञानिक 'एफ', निदेशक ओ. एण्ड एम. एवं राजभाषा, अनुसंधान तथा विकास मुख्यालय, नई दिल्ली 31-07-1996 (अपराह्न) को सेवानिवृत्त हुए तथा 01-08-1996 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना को स्थानान्तरित किया गया ।

डी. जे. एन्डय  
 सहायक निदेशक (कार्यिक)



धन सेना विभाग

सं. 584, दिनांक 30 जुलाई 1996—राष्ट्रपति सहस्र निम्नलिखित शीर्षकारी की मानभूमिसय आधार पर सेवा में छुटकारा देने की अनुमति प्रदान करने हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन (फ.) जे सी शर्मा (एम आर-06324-एफ), एएम सी—14 जुलाई 95 (अपराह्न)।

जे सी शर्मा

सर्जन रियर एडमिरल

अतिरिक्त महानिदेशक स.से.चि.सं.

सं. 585, दिनांक 2 अगस्त 1996—रक्षा मंत्रालय अधि-सूचना सं. 366 दिनांक 25 मार्च 1994 में भारत के राजपत्र सं. 19 दिनांक 07 मई 1994, शीर्षक 'नियमित सेना' उप शीर्षक 'तोषणाना रजिमेंट' के अन्तर्गत :—

सबस्टेण्टिव सूबेदार (ए आर्डी जी) के पद में

निम्नलिखित परिवर्तन किया जाए :—

नायब सूबेदार मुस्तार सिंह (जसी 190554 ए.ए.) पहले—01 जनवरी 1994

अभी—01 दिसम्बर 1993।

प्रकाश चन्द

अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th September 1996

No. 564, dt. 28th Jun 1996.—The President is pleased to appoint Shri M. V. Subha Rao, PS, CSSS, on transfer from Ministry of Information & Broadcasting, as Assistant Private Secretary to Raksha Mantri (Shri Mulayam Singh Yadav), w.e.f. 21st June, 1996 (F/N) till the Minister demits Office or until further orders whichever is earlier.

The President is pleased to extend the appointment of the following Grade 'C' Stenographers, borne on the CSSS Cadre of Ministry of Defence as Private Secretaries (Merged Grade A&B of CSSS) in the same Ministry on ad-hoc basis for the further period, mentioned against each or till regular officers become available or until further orders, whichever is earlier :—

S. No., Name From and To

S/Shri

O. P. Grover—1-7-96—30-9-96.

Smt. Suman Malik—1-7-96—30-9-96.

(with a day's break on 3-8-96).

Smt. Aparna Ramaswamy—1-7-96—30-9-96.

(with a day's break on 2-8-96).

K. S. Mallik—1-7-96—30-9-96.

(with a day's break on 1-7-96).

Kedar Nath—1-7-96—30-9-96.

(with a day's break on 3-8-96).

P. V. Mohan—1-7-96—30-9-96.

(with a day's break on 2-8-96).

T. M. Kurien—1-7-96—30-9-96.

S. S. Kataria—1-7-96—30-9-96.

(with a day's break on 30-9-96).

Ajit Singh—1-7-96—30-9-96.

(with a day's break on 25-9-96).

P. R. Venkatagiri—1-7-96—30-9-96.

(with a day's break on 2-9-96).

Rajpal Singh—1-7-96—30-9-96.

M. N. Rajput—1-7-96—30-9-96.

Bhupinder Singh—1-7-96—30-9-96.

Dr. A. R. GOYAL, Under Secy.

ARMY HEADQUARTERS

(AG's BRANCH)

No. 565, dt. 26-7-1996.—The President is pleased to make the appointments of the following officers of AFHQ Civil Service and AFHQ Stenographers Service as Civilian Staff Officer under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968 for a period of six months from 3-11-95 or till regular incumbents become available, or till such time the individual retires, whichever is earlier :—

S/Shri

Amrik Singh—AG/PS.

Sheodan Singh—AG/PS.

SS Perumal—AG/PS.

K Kundu—AG/DV.

PK Pattnayak—AG/Org.

Ram Kumar—AG/PS.

These appointments are made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

They will not have any claim for appointment to the above post on regular basis nor will their service rendered as CSO under Rule 10(2) reckon for seniority.

QMG's BRANCH

The President is pleased to appoint the following officers of AFHQ Civil Service as Civilian Staff Officers (Gp 'A') under Rule 10(2) of AFHQ Civil Service Rules, 1968, from the date mentioned against each, for a period of six months or till regular incumbents become available or till such time the individual retires, whichever is earlier and retain in QMG's Branch :—

S/Shri

Sanjay Sinha—7-5-96.

Ajay Kumar—7-5-96.

K Vijayan—7-5-96.

SC Minocha—7-5-96.

SP Das—7-5-96.

PS Rathore—7-5-96.

RK Chhabra—7-5-96.

JC Nahar—7-5-96.

Sohan Pal—7-5-96.

KS Jain—7-5-96.

A Ramakrishna Rao—8-5-96.

Smt. Deepa Mathur—7-5-96.

Tek Chand—3-6-96.

These appointments are made purely as stop gap arrangement and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

DGQA

The President is pleased to make the appointment of Shri BL Sharma, Assistant (Group 'B'—Non-Gazetted) as Officiating Assistant Civilian Staff Officer (Group 'B'—Gazetted) in the AFHQ Civil Service with effect from 01 Jul 96 until further orders.

The above appointment is subject to modification as may be necessary in the implementation of Judgement in various cases regarding seniority and promotion before Courts.

RENU K RAJU  
Dy. Chief Administrative Officer.

DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT ORGANISATION

(D. R. D. S.)

No. 566, dt. 31st Jul 1996.—The President is pleased to appoint Sh. John T. Abraham to the post of Scientist 'B' (Gazetted Group 'A' post) in the Defence Research & Development Service (RCMA A/C, Bangalore), on regular basis with effect from 07 May 92 (F/N) on probation for a period of two years.

The President is pleased to appoint Sh. Praveer Verma to the post of Scientist 'B' (Gazetted Group 'A' post) in the Defence Research & Development Service (RTO, Kanpur) on regular basis with effect from 6-2-92 (F/N) on probation for a period of two years.

D. J. ANDREW, Asstt. Dir (Pers-8).

(ARMY BRANCH)

No. 567, dated the 30th Jul 1996.—The President is pleased to make the following appointment under AI 74/76, as amended:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Sunil Bose, MBBS (MR-06141-L), AMC, 16 Apr 90, with seniority for pay and promotion from 16 Oct 1989.

(This includes six month antedate for House job which will count for pension but not for gratuity).

(MOD Notification published in G of I Gazette dated 16 May 92, in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

To be Lt (On Prob)

Faiz Moinuddin Haris Ahmad MBBS, (MR-06667-K) AMC, 29 June 94.

T Ajay Chakravarthy, MBBS (MR-06673-L) AMC, 29 June 94.

Naveen Chaudhary (MR-06683-P), AMC, 29-6-94.

Addl. DGAFMS  
Surg Rear Admiral,  
Addl. DGAFHS.

CORPS OF ELECTRICAL AND MECHANICAL ENGINEERS

No. 568, dt. 31st Jul 1996.—The President is pleased to appoint Shri Rajesh Kumar Assistant Executive Engineer as Executive Engineer in the Corps of EME with effect from 13 Mar 1996 (Forenoon).

RITA CHATTERJEE, Under Secy.

No. 569, dt. 30th Jul 1996.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 23-3-94 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

(REGULAR ARMY)

PERMANENT COMMISSION

To be Capt (On Prob)

Shambhu Sharma, MBBS (MS-11993-K), now (MR-06609 N), AMC, with seniority for pay and promotion from 29-4-87.

J. C. SHARMA,  
Surg Rear Admiral,  
Addl. DGAFMS.

No. 570, dt. 30th Jul 1996.—The President is pleased to confirm the undermentioned Officer consequent on the completion of the probationary period:—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Lt (now Capt) A S Menon (MR-06030-N), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) R Agarwal (MR-06020-K), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) J S Sandhu (MR-06024-A) AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) S Sanghi (MR-06050-F), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) A R Banu (MR-06076-W), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) P K Sharma (MR-06032-Y), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) A G Pandit (MR-06048-K), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) R Bartarya (MR-06078-F), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) M S Gill (MR-06028-W), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) S K Singh (MR-06046-Y), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) V Langer (MR-06066-M), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) T S Mohan (MR-06070-P), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) R Shankar (MR-06080-Y), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) B Nambiar (MR-06072-A), AMC, 26 Dec. 1989.

Lt (now Capt) AD Sud (MR-06064-F), AMC, 26 Dec 1989.

Lt (now Capt) N Singh (MR-06074-L), AMC, 26 Dec. 1989.

J. C. SHARMA  
Surg Rear Admiral.  
Addl. DGAFMS.

## (ARMY BRANCH)

No. 571, dt. 31st July 1996.—The President is pleased to confirm the undermentioned officers consequent to the completion of the probationary period:—

REGULAR ARMY  
(ARMY DENTAL CORPS)  
(SHORT SERVICE COMMISSION)

Flg Offr Sri Balaji Manikonda (DS-11820-M) (AF-23061),  
6-4-94.

V JAGANNADHACHARY, Brig.  
Dy. DGDS.

## DEFENCE RESEARCH &amp; DEVELOPMENT ORGN

No. 572, dt. 6th Aug 1996.—The President is pleased to make the following promotion:—

Shri R. L. Tiwari, Scientist 'C' of Directorate of Standardisation to be officiating Scientist 'D' in the same Directorate with effect from 1/7/1996 (F/N) in the pay scale of Rs. 3700-125-4700-150-5000/-.

Shri V. K. Panchal, Scientist 'D' of Defence Terrain Research Laboratory (DTRL), Delhi to be officiating Scientist 'E' in the same laboratory in the pay scale of Rs. 4500-150-5700/- with effect from 1-7-1996 (F/N).

The undermentioned Scientists of Labs/Estts mentioned against their names to be officiating Scientists in the next grade and in the pay scale mentioned against their names in the same Lab/Estts wef 1-7-1996 (F/N):—

Name	Present Grade	Grade to which promoted	Labs/Estts	Pay Scale
Dr. A.K. Sen	F	G	Defence Materials & Stores Research & Development Establishment, Kanpur	5900-200-7300
Sh. B B. Vedaprakash	E	F	Regional Centre for Military Airworthiness (Engines), Bangalore	5100-150-6300
Sh. G. Kundu	E	F	Regional Centre for Military Airworthiness, Hyderabad	Do.
Sh. J. K. Jain	D	E	Regional Centre for Military Airworthiness. (AA), Pune	4500-150-5700
Sh. L. Bhakta Prasad	D	E	Do.	Do.
Sh. S. Ramaseshan	D	E	Do.	Do.

Following scientist 'F' of the Labs/Estts mentioned against each to be officiating Scientist 'G' in the same Establishment wef 1-7-1996 (F/N) in the pay scale of Rs. 5900-7300/-.

Name and Lab/Estt.

Dr. G. S. K. Rao—L. R. D. E., Bangalore.

Shri N. Sitaram—L. R. D. E., Bangalore.

Dr. V. P. Rangaiah—A. D. E., Bangalore

Dr. Ram Kumar, Scientist 'F' of Personnel Assessment Centre, Delhi to be officiating Scientist 'G' in the same centre wef 1-7-1996 (F/N) in the pay scale of Rs. 5900-200-7300/-.

D. J. ANDREW, Asstt. Director (Pers).

## (ARMY BRANCH)

No. 573, dated 31st July 1996.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY  
PERMANENT COMMISSION  
CAPT TO BE MAJOR

IC-45311 DR Rana, AC—09 Nov 95.

IC-45291 P Salhotra, M/Inf—09 Nov 95.

IC-45299 BS Yadav, AC—09 Nov 95.

IC-45310 VK Rathore, Int—09 Nov 95.

IC-45314 LS Dhillon, Inf—08 Jan 96.

IC-45329 SK Soni, EME—08 Jan 96.

IC-45343 Deepak Vashista, EME—08 Jan 96.

IC-45298 Tara Singh, M/Inf—08 Jan 96.

IC-42309 MS Nikam, Arty—15 Dec 95.

IC-42366 Ketan Shah, Sigs—15 Dec 95.

IC-42377 SK Chaturvedi, Engrs—15 Dec 95.

IC-42395 MG Venkatesh, Inf—15 Dec 95.

IC-42425 Arvind Verma, Engrs—15 Dec 95.

IC-42452 Ishwar Pal, AQC—15 Dec 95.

IC-42471 Jayanta Misra EME—15 Dec 95.

IC-42491 CP Sangra, Inf—15 Dec 95.

IC-42493 N Shanbhag, Inf—15 Dec 95.

IC-42499 R Chadha ASC—15 Dec 95.

IC-42505 RK Sinha, AD Arty—15 Dec 95.

IC-42516 OP Gulia, Inf—15 Dec 95.

IC-42522 MK Basak, Sigs—15 Dec 95.

IC-42532 VS Prabhakar, Engrs—15 Dec 95.

IC-42598 Rohit Kumar, Engrs—15 Dec 95.

IC-42628 JS Sokhi, Sigs—15 Dec 95.

IC-42635 NB Bishen, Inf—15 Dec 95.

IC-42706 Arun Datta, AEC—15 Dec 95.

IC-42720 UB Gogte, KEC—15 Dec 95.

IC-42739 AV Jose, AEC—15 Dec 95.

IC-42426 Sanjeev Kaloty, Sigs—15 Dec 95.

IC-42319 Ajay Dixit, Sigs—8 Jan 96.

IC-42379 DB Chhetri, Arty—8 Jan 96.

IC-42414 R Raj, Inf—8 Jan 96.

IC-42487 S Sawant, AD Arty.—8 Jan 96.

IC-42503 Rajeev Sharma, Sigs—8 Jan 96.

IC-42515 VK Rai, Inf—8 Jan 96.

IC-42523 H Chaturvedi, AD Arty—8 Jan 96.

IC-42524 SS Jamwal, Inf—8 Jan 96.

IC-42530 MK Sharma, Engrs—8 Jan 96.

IC-42534 JS Ahlawat, Inf—8 Jan 96.

IC-42536 Brijdeep Singh, AC—8 Jan 96.

IC-42541 BS Ghuman, Inf—8 Jan 96.

IC-42542 MK Mago, Inf—8 Jan 96.

IC-42547 DS Badhan, Arty—8 Jan 96.

IC-42565 PKN Dhole, Arty—8 Jan 96.

IC-42578 Joginder Singh, ASC—8 Jan 96.

IC-42581 Neelamber Jha, Engrs—8 Jan 96.

IC-42593 MJ Sharma, Arty—8 Jan 96.

IC-42692 V Shukla, Arty—8 Jan 96.

IC-42618 A Anandan, Inf—8 Jan 96.

IC-42624 Suresh Singh, Sigs—8 Jan 96.

IC-42655 BR Kushwaha, Inf—8 Jan 96.

IC-42656 RK Srivastava, Arty—8 Jan 96.

IC-52658 D Dhingra, Arty—8 Jan 96.

IC-42659 AR Sharma, Arty—8 Jan 96.

IC-42662 RK Palsule, M/Inf—8 Jan 96.

IC-42672 PA Iyer, M/Inf—8 Jan 96.

IC-42673 NK Thapa, Arty—8 Jan 96.

IC-42738 Narendra Singh, AEC—08 Jan 96.

IC-44458 B Srinivas, Engrs, EME—20 Dec 95.

IC-44466 Rajiv Sharma, Engrs—20 Dec 95.

IC-44470 DK Vats, Engrs—20 Dec 95.

IC-41621 RS Dodain, Arty—17 Dec 94.

IC-43615 SS Suhag, Engrs—18 Dec 94.

IC-43617 B Raghunath, EME—18 Dec 94.

IC-43640 Pradeep Mehta, Sigs—18 Jun 95.

IC-41598 S Jagpal, Arty—8 Jan 95.

IC-41634 AK Sahrawat, Inf—8 Jan 96.

IC-41759 AK Sikdar, Sigs—8 Jan 96.

IC-41768 Navjot Singh, Arty—8 Jan 96.

IC-41780 VV Asolkar, Engrs—8 Jan 96.

IC-41785 SK Jena, Arty—8 Jan 96.

IC-41828 SS Minhas, AEC—8 Jan 96.

IC-41840 Ajay Mehta, AEC—17 Dec 94. (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-41907 RK Balwada, Sigs—9 Jun 95.

IC-41914 Pritam Bishnoi, Sigs—09 Jun 95.

IC-41932 KS Joon, Inf—09 Jun 95.

IC-42012 Amit Saxena, Engrs—09 Jun 95.

IC-42035 Neeraj Joshi, AD Arty—09 Jun 95.

IC-42106 A Samania, AOC—09 Jun 95.

IC-42143 PU Bhaskar, Arty—09 Jun 95.

IC-42178 Vijender Singh, ASC—09 Jun 95.

IC-42221 Sanjay Kapil, AOC—9 Jun 95.

IC-43995 Rajiv Joshi, EME—14 Jun 95.

IC-41928 PK Handa, Engrs—9 Jun 95.

IC-41939 Sanjay Sahni, EME—9 Jun 95.

IC-41966 N Balakrishna, Sigs—9 Jun 95.

IC-41968 DS Mor, Arty—9 Jun 95.

IC-41983 M Sanguri, Inf—9 Jun 95.

IC-42078 AK Mathur, Inf—9 Jun 95.

IC-42082 Panjab Deshmukh, Sigs—9 Jun 95.

IC-42101 JK Shukla Arty—9 Jun 95.

IC-42120 CK Paruthi, Sigs—9 Jun 95.

IC-42158 Narendra Pal, Inf—9 Jun 95.

IC-42170 SC Kohar, Arty—9 Jun 95.

IC-42204 A Bahukhandi, EME—9 Jun 95.

IC-42206 Nariinder Singh, Inf—9 Jun 95.

IC-42209 YPS Grewal, AC—9 Jun 95.

IC-42227 Gurmohan Singh, Sigs—9 Jun 95.

IC-42233 DS Kadyan, Inf—9 Jun 95.

IC-42240 GS Sirsakar, Engrs—9 Jun 95.

IC-42256 Jagdish Chandra, AEC—9 Jun 95.

IC-42267 MC Joshi, AEC—9 Jun 95.

(But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-34614 NK Sharma, Inf—08 Jan 94 (But for pay & Allowances 8 Jan 96).

IC-37263 TJ Shanmugam, Arty—08 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-37495 P Jayraj, Inf—08 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-37560 GC Ghildiyal, Arty—08 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-37899 K Raja Vikraman, Sigs—08 Jan 94.

IC-37916 S Bhattacharya, Arty—08 Jan 94. (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-37844 P Shree Kumar, Engrs—08 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-38976 V Yadav, ASC—08 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-37952 HG Khare, ASC—08 Jan 94.

IC-37959 RS Verma, AOC—08 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-39424 Kamal Kumar, AFC—08 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96);

IC-40388 DN Bhotia, Arty—08 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-38629 R Bhardwaj, Sigs—8 Jan 94.

IC-38634 Peeush Joshi, EMF—8 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-39502 ND Chauhan, Inf—08 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-45141 DS Bisht, Arty—10 Nov 94.

IC-45166 YP Sinha, EME—10 Nov 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-45228 MS Dash, Inf—25 Apr 95 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-45379 Rajiv Punj, Mech/Inf—25 Apr 96.

IC-40077 Balram Singh, AOC—08 Jan 94.

IC-40110 AS Dhanjal, Inf—08 Jan 94.

IC-40175 Naresh Singh, Inf—8 Jan 94.

IC-40188 KD Prasad, Arty—8 Jan 94.

IC-40221 RC Verma, Arty—8 Jan 94.

IC-40236 RK Pandey, AD Arty—8 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-40041 PK Sharma, ASC—8 Jan 96.

IC-45040 Rahul Ahuja, Inf—26 Apr 94.

IC-45080 PS Randhawa, Inf—26 Apr 94.

IC-45085 Kuljit Singh, AC—26 Apr 94.

IC-45107 AK Tripathi, Engrs—26 Apr 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-42714 S Ramesh, Sigs—8 Jan 94.

IC-42743 S Banerjee, EME—8 Jan 94.

IC-42746 RK Shrivastava, Sigs—8 Jan 94.

IC-40872 A Balaji, Sigs—8 Jan 94.

IC-40893 G Prasad, Arty—8 Jan 94.

IC-41031 C Subramaniam, Inf—08 Jan 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-40780 Surjit Singh, Arty—25 Dec 95.

IC-41125 Vivek Davar, Engrs—18 Jun 94.

IC-41159 SS Jalkar, EME—18 Jun 94.

IC-41417 N Bbargawa, Inf—18 Jun 94.

IC-41421 SK Sood, Arty—18 Jun 94.

IC-41426 VK Sharma ASC—18 Jun 94.

IC-41243 UK Sharma, Arty—18 Jun 94.

IC-41288 Ajesh Kumar, Sigs—18 Jun 94.

IC-41386 N Kumar, Inf—18 Jun 94.

IC-41397 Ajay Tikkar, Sigs—18 Jun 94. (But for Pay & Allowances 08 Jan 96).

IC-43207 I. Mishra, Engrs—19 Jun 94 (But for Pay & Allowances 08 Jan 96)

2/Lt to be Lt

A Kalia (IC-52724) AC, 11 Jun 96.

D Sheoran (IC-52725) AC, 11 Jun 96.

N A Chaudhary (IC-52726) Engrs, 11 Jun 96.

M A Shaik (IC-52727) AC, 11 Jun 96.

V Slathia (IC-52728) Inf, 11 Jun 96.

IS Gil (IC-52729) Sigs, 11 Jun 96.

S Kohli (IC-52730) Inf, 11 Jun 96.

A Hooda (IC-52731) Engrs, 11 Jun 96.

N Singh (IC-52732) Mech Inf, 11 Jun 96.

A Nautiyal (IC-52733) Inf, 11 Jun 96.

RS Chandel (IC-52734) Inf, 11 Jun 96.

T Chauhan (IC-52735) AD Arty, 11 Jun 96.

K Singh (IC-52736) AOC, 11 Jun 96.

SS Kushwaha (IC-52737) Engr, 11 Jun 96.

P Doval (IC-52738) Inf, 11 Jun 96.

SS Pundir (IC-52740) Inf, 11 Jun 96.

AS Singh (IC-52741) EME, 11 Jun 96.

BK Awasthi (IC-52742) Inf, 11 Jun 96.

M Sharma (IC-52743) EME, 11 Jun 96.

I S Bhinder (IC-52744) Inf, 11 Jun 96.

P Maggo (IC-52746) Sigs, 11 Jun 96.

S P Tripathi (IC-52747) ASC, 11 Jun 96.

A M Kakade (IC-52748) Inf, 11 Jun 96.

J S Sial (IC-52749) EMP, 11 Jun 96.

A Mishra (IC-52750) Inf, 11 Jun 96.

A Suneja (IC-52751) Sigs, 11 Jun 96.

M Kukreti (IC-52752) Inf, 11 Jun 96.

H S Mavi (IC-52753) Inf, 11 Jun 96.

A Cherian (IC-52754) Arty, 11 Jun 96.

T M Reddy (IC-52755) Inf, 11 Jun 96.

S Ghoshal (IC-52756) Inf, 11 Jun 96.

S Sharma (IC-52757) Inf, 11 Jun 96.

B Jacob (IC-52758) AOC, 11 Jun 96.

APS Patwal (IC-52759) Arty, 11 Jun 96.

G Singh (IC-52760) Inf, 11 Jun 96.

AM Surve (IC-52761) AD Arty, 11 Jun 96.

A Awasthi (IC-52762) AC, 11 Jun 96.

S Bhargava (IC-52763) EME, 11 Jun 96.

SK Choudhary (IC-52764) Sigs, 11 Jun 96.

D Singh (IC-52765) ASC, 11 Jun 96.

S Bhatnagar (IC-52766) Engrs, 11 Jun 96.

S Singh (IC-52767) AOC, 11 Jun 96.

G Ray (IC-52768) AD Arty, 11 Jun 96.

M Kharkhal (IC-52770) Arty, 11 Jun 96.

V K Peonia (IC-52771) AOC, 11 Jun 96.

R Raman (IC-52772) Inf, 11 Jun 96.

K Saha (IC-52774) Inf, 11 Jun 96.

- O Singh (IC-52775) Inf, 11 Jun 96.  
 R K Chaudhary (IC-52776) EME, 11 Jun 96.  
 A S Bhadauria (IC-52777) Inf, 11 Jun 96.  
 G Sharma (IC-52778) Inf, 11 Jun 96.  
 R Pawar (IC-52779) Inf, 11 Jun 96.  
 A S Rawat (IC-52780) Mech Inf, 11 Jun 96.  
 R Kumar (IC-52781) Inf, 11 Jun 96.  
 P Godara (IC-52782) EME, 11 Jun 96.  
 S D Reuben (IC-52783) Engrs, 11 Jun 96.  
 P Attari (IC-52784) Inf, 11 Jun 96.  
 D S Guleria (IC-52785) AOC, 11 Jun 96.  
 R Bhandari (IC-52786) Engrs, 11 Jun 96.  
 A A Jafri (IC-52787) Inf, 11 Jun 96.  
 A Dhir (IC-52789) Arty, 11 Jun 96.  
 C R Eswar (IC-52790) ASC, 11 Jun 96.  
 S P Mainkar (IC-52791) Inf, 11 Jun 96.  
 P Kapur (IC-52794) Mech Inf, 11 Jun 96.  
 G Sharma (IC-52795) AC, 11 Jun 96.  
 V Vaibhav (IC-52796) Sigs, 11 Jun 96.  
 J S Sekhon (IC-52797) AOC, 11 Jun 96.  
 K Kapoor (IC-52798) AC, 11 Jun 96.  
 S Bathla (IC-52799) Inf, 11 Jun 96.  
 N S Sohal (IC-52800) Arty, 11 Jun 96.  
 A Choudhury (IC-52801) Arty, 11 Jun 96.  
 R Brahmats (IC-52802) ASC, 11 Jun 96.  
 A Singh (IC-52803) Inf, 11 Jun 96.  
 S Kumar (IC-52804) Inf, 11 Jun 96.  
 S Kukreti (IC-52805) ASC, 11 Jun 96.  
 C E Reddy (IC-52806) Inf, 11 Jun 96.  
 R Kapoor (IC-52807) Inf, 11 Jun 96.  
 P Dangwal (IC-52809) Engrs, 11 Jun 96.  
 A Chatterjee (IC-52810) Inf, 11 Jun 96.  
 D Gupta (IC-52811) EME, 11 Jun 96.  
 S S Dhanda (IC-52812) Engr, 11 Jun 96.  
 S Venkatesh (IC-52813) Inf, 11 Jun 96.  
 J Dahiya (IC-52814) ASC, 11 Jun 96.  
 A Srivastava (IC-52815) Arty, 11 Jun 96.  
 A Sharma (IC-52817) Sigs, 11 Jun 96.  
 S C O'Brien (IC-52818) Inf, 11 Jun 96.  
 R S Thakur (IC-52819) Sigs, 11 Jun 96.  
 S Kumar (IC-52820) Arty, 11 Jun 96.  
 R S Joshi (IC-52822) Inf, 11 Jun 96.  
 M Desai (IC-52824) Engrs, 11 Jun 96.  
 R S Narayanan (IC-52825) AD Arty, 11 Jun 96.  
 R Sehgal (IC-52826) ASC, 11 Jun 96.  
 R Shukla (IC-52828) ASC, 11 Jun 96.  
 S Kumar (IC-52829) Arty, 11 Jun 96.  
 S Ekambram (IC-52830) Engrs, 11 Jun 96.  
 A Kuhite (IC-52833) Engrs, 11 Jun 96.  
 V K Shahi (IC-52834) AD Arty, 11 Jun 96.  
 M S Bains (IC-52835) Inf, 11 Jun 96.  
 S Saha (IC-52836) AC, 11 Jun 96.  
 R Sah (IC-52837) Inf, 11 Jun 96.  
 P K Kumar (IC-52838) Arty, 11 Jun 96.  
 S Sharma (IC-52839) Engr, 11 Jun 96.  
 C J Antony (IC-52840) Inf, 11 Jun 96.  
 S Singh (IC-52841) Arty, 11 Jun 96.  
 M M Joshi (IC-52842) AC, 11 Jun 96.  
 P Sharma (IC-52843) Inf, 11 Jun 96.  
 N R Rayudu (IC-52844) EME, 11 Jun 96.  
 M I S Gill (IC-52846) Inf, 11 Jun 96.  
 D K Jha (IC-52847) EME, 11 Jun 96.  
 H Singh (IC-52848) Arty, 11 Jun 96.  
 A Chawla (IC-52850) ASC, 11 Jun 96.  
 S Dhabhai (IC-52851) EME, 11 Jun 96.  
 S R Gulia (IC-52852) Arty, 11 Jun 96.  
 A M Yeole (IC-52853) Inf, 11 Jun 96.  
 V Gupta (IC-52855) Inf, 11 Jun 96.  
 D B S Cheema (IC-52856) ASC, AOC, 11 Jun 96.  
 G Muthuraman (IC-52859) ASC, 11 Jun 96.  
 A P Singh (IC-52860) ASC, 11 Jun 96.  
 M S Prakash (IC-52861) AC, 11 Jun 96.  
 M Venkataraman (IC-52862) EME, 11 Jun 96.  
 V Thorat (IC-52863) Inf, 11 Jun 96.  
 S K Rana (IC-52864) EME, 11 Jun 96.  
 H Bhandari (IC-52865) Inf, 11 Jun 96.  
 T Kumar (IC-52866) Arty, 11 Jun 96.  
 S Thakur (IC-52867) Inf, 11 Jun 96.  
 D S Verma (IC-52868) Sigs, 11 Jun 96.  
 A Agrawal (IC-52869) Engrs, 11 Jun 96.  
 A Kumar (IC-52870) AC, 11 Jun 96.  
 N Roshyan (IC-52873) Engrs, 11 Jun 96.  
 P S Waghmare (IC-52874) Mech Inf, 11 Jun 96.  
 N Thapa (IC-52875) AOC, 11 Jun 96.  
 H Singh (IC-52876) AOC, 11 Jun 96.  
 V Bhatia (IC-52877) AOC, 11 Jun 96.  
 S Rawat (IC-52878) Inf, 11 Jun 96.  
 A K Pandey (IC-52879) ASC, 11 Jun 96.  
 S Mannan (IC-52880) Arty, 11 Jun 96.  
 A P Singh (IC-52881) Sigs, 11 Jun 96.  
 V Dubey (IC-52882) Inf, 11 Jun 96.  
 M Singh (IC-52883) Arty, 11 Jun 96.  
 H Singh (IC-52884) Inf, 11 Jun 96.  
 S Dubey (IC-52885) Arty, 11 Jun 96.

- NS Murthy (IC-52886) Arty, 11 Jun 96.  
 M Kapil (IC-52887) Arty, 11 Jun 96.  
 B Karthik (IC-52888) ASC, 11 Jun 96.  
 P Kaushal (IC-52889) Engrs, 11 Jun 96.  
 P Verma (IC-52891) EME, 11 Jun 96.  
 K Singh (IC-52892) Inf, 11 Jun 96.  
 A Thakur (IC-52893) AOC, 11 Jun 96.  
 B Choudhury (IC-52894) AD Arty, 11 Jun 96.  
 R Bhadola (IC-52895) Inf, 11 Jun 96.  
 K K Sharma (IC-52896) Arty, 11 Jun 96.  
 M K Pandey (IC-52897) Inf, 11 Jun 96.  
 D P S Dandona (IC-52898) Inf, 11 Jun 96.  
 G Atreya (IC-52899) Engrs, 11 Jun 96.  
 R K Singh (IC-52900) ASC, 11 Jun 96.  
 C B Joshi (IC-52901) ASC, 11 Jun 96.  
 P Gupta (IC-52903) Arty, 11 Jun 96.  
 A J S Rana (IC-52905) Arty, 11 Jun 96.  
 A Chopra (IC-52907) Arty, 11 Jun 96.  
 A Mukherjee (IC-52908) AC, 11 Jun 96.  
 V Gambhir (IC-52909) AOC, 11 Jun 96.  
 S Kumar (IC-52910) ASC, 11 Jun 96.  
 P Sinha (IC-52913) Arty, 11 Jun 96.  
 B Gupta (IC-52914) Sigs, 11 Jun 96.  
 A Langar (IC-52915) EME, 11 Jun 96.  
 U S Rawat (IC-52916) ASC, 11 Jun 96.  
 S Prashar (IC-52917) ASC, 11 Jun 96.  
 C H Vinod (IC-52918) Arty, 11 Jun 96.  
 A S Rana (IC-52919) Inf, 11 Jun 96.  
 G Mohan (IC-52920) AC, 11 Jun 96.  
 M Paruthi (IC-52921) EME, 11 Jun 96.  
 R Rana (IC-52923) Inf, 11 Jun 96.  
 H Singh (IC-52924) Arty, 11 Jun 96.  
 A Kumar (IC-52925) Inf, 11 Jun 96.  
 V K Singh (IC-52926) EME, 11 Jun 96.  
 K D S Hooda (IC-52927) ASC, 11 Jun 96.  
 K Ramakrishnan (IC-52928) Inf, 11 Jun 96.  
 A Ranjan (IC-52929) Inf, 11 Jun 96.  
 V Keprate (IC-52930) Arty, 11 Jun 96.  
 G Kaushik (IC-52931) Engrs, 11 Jun 96.  
 A Jawa (IC-52932) Sigs, 11 Jun 96.  
 S Nandi (IC-52933) Inf, 11 Jun 96.  
 A Sah (IC-52934) AOC, 11 Jun 96.  
 S Rajeev (IC-52935) AD Arty, 11 Jun 96.  
 J Singh (IC-52936) EME, 11 Jun 96.  
 J G John (IC-52939) EME, 11 Jun 96.  
 M D Joshi (IC-52940) Inf, 11 Jun 96.  
 V Saxena (IC-52941) Sigs, 11 Jun 96.  
 D P Singh (IC-52942) EME, 11 Jun 96.  
 U S Anand (IC-52943) Arty, 11 Jun 96.  
 N Negi (IC-52944) Inf, 11 Jun 96.  
 J Kar (IC-52945) Engrs, 11 Jun 96.  
 K Bhaskar (IC-52948) EMF, 11 Jun 96.  
 A S Mangat (IC-52949) Inf, 11 Jun 96.  
 P Choubey (IC-52950) Inf, 11 Jun 96.  
 N Kumar (IC-52951) AOC, 11 Jun 96.  
 J Singh (IC-52952) Engrs, 11 Jun 96.  
 S A Gokhale (IC-52953) Engrs, 11 Jun 96.  
 J J Jesu (IC-52956) Sigs, 11 Jun 96.  
 S A Srinivasan (IC-52957) Sigs, 11 Jun 96.  
 N Rawat (IC-52958) ASC, 11 Jun 96.  
 S Basu (IC-52959) Inf, 11 Jun 96.  
 S K Dhal (IC-52961) Arty, 11 Jun 96.  
 G Verma (IC-52962) Arty, 11 Jun 96.  
 V Chaturvedi (IC-52963) Inf, 11 Jun 96.  
 V Joshi (IC-52964) Arty, 11 Jun 96.  
 B S Fogat (IC-52965) Inf, 11 Jun 96.  
 M Singh (IC-52966) Inf, 11 Jun 96.  
 R Oberoi (IC-52967) Engr, 11 Jun 96.  
 M Manchanda (IC-52968) Arty, 11 Jun 96.  
 A S Luthra (IC-52969) AC, 11 Jun 96.  
 V Mahajan (IC-52970) Inf, 11 Jun 96.  
 K S Mathur (IC-52971) Inf, 11 Jun 96.  
 G Singh (IC-52973) AOC, 11 Jun 96.  
 R M Singh (IC-52974) AD Arty, 11 Jun 96.  
 R S Tiwari (IC-52975) EME, 11 Jun 96.  
 S K Thakur (IC-52976) Inf, 11 Jun 96.  
 M S Tanwar (IC-52977) AOC, 11 Jun 96.  
 N Javed (IC-52979) Inf, 11 Jun 96.  
 S K Tondon (IC-52980) Inf, 11 Jun 96.  
 T Uppal (IC-52982) EME, 11 Jun 96.  
 R Mehra (IC-52983) ASC, 11 Jun 96.  
 M S Sundram (IC-52984) Engr, 11 Jun 96.  
 V Bhardwaj (IC-52985) ASC, 11 Jun 96.  
 A Bakshi (IC-52986) Engr, 11 Jun 96.  
 M S Chauhan (IC-52987) Inf, 11 Jun 96.  
 D P Singh (IC-52988) Inf, 11 Jun 96.  
 S Ahluwalia (IC-52989) Sigs, 11 Jun 96.  
 P S Gill (IC-52990) Sigs, 11 Jun 96.  
 H F Rangwala (IC-52991) AC, 11 Jun 96.  
 N Sood (IC-52993) AD Arty, 11 Jun 96.  
 M Agarwal (IC-52994) Inf, 11 Jun 96.  
 M Chaturvedi (IC-52995) Inf, 11 Jun 96.  
 N Chaturvedi (IC-52997) AOC, 11 Jun 96.  
 V Vivek (IC-52998) Sigs, 11 Jun 96.  
 S D Bandekar (IC-52999) ASC, 11 Jun 96.  
 H Deoras (IC-53000) Sigs, 11 Jun 96.  
 M Saxena (IC-53001) Inf, 11 Jun 96.  
 G Poulsee (IC-53003) Inf, 11 Jun 96.

- MP Chatterjee (IC-53004) EME, 11 Jun 96.  
 MK Tiwari (IC-53005) Arty, 11 Jun 96.  
 SR Sharma (IC-53009) Engr, 11 Jun 96.  
 R Mahajan (IC-53010) Inf, 11 Jun 96.  
 TS Hothi (IC-53011) Inf, 11 Jun 96.  
 AS Negi (IC-53012) Inf, 11 Jun 96.  
 J Singh (IC-53014) EME, 11 Jun 96.  
 D Prashar (IC-53017) Inf, 11 Jun 96.  
 TS Kang (IC-53018) ASC, 11 Jun 96.  
 P Gaur (IC-53019) Engr, 11 Jun 96.  
 YS Kapur (IC-53020) Inf, 11 Jun 96.  
 EB Sujay (IC-53021) AC, 11 Jun 96.  
 H Nadar (IC-53022) Arty, 11 Jun 96.  
 A Kumar (IC-53024) AOC, 11 Jun 96.  
 DS Dabas (IC-53025) ASC, 11 Jun 96.  
 SK Tiwari (IC-53026) Arty, 11 Jun 96.  
 TR Das (IC-53027) EME, 11 Jun 96.  
 SS Gautam (IC-53028) Engr, 11 Jun 96.  
 A Gupta (IC-53029) Arty, 11 Jun 96.  
 BC Kandpal (IC-53031) ASC, 11 Jun 96.  
 S Boyal (IC-53032) Arty, 11 Jun 96.  
 A Sethi (IC-53033) Arty, 11 Jun 96.  
 PTR Jagannath (IC-53034) AOC, 11 Jun 96.  
 VS Godhara (IC-53036) AC, 11 Jun 96.  
 A Sharma (IC-53037) AD Arty, 11 Jun 96.  
 BC Baunthiyal (IC-53038) Sigs, 11 Jun 96.  
 A Hoskote (IC-53039) AC, 11 Jun 96.  
 AP Singh (IC-53040) Inf, 11 Jun 96.  
 N Singh (IC-53041) Mech Inf, 11 Jun 96.  
 N Srivastava (IC-53042) Inf, 11 Jun 96.  
 RM Dwivedi (IC-53044) Inf, 11 Jun 96.  
 V Kumar (IC-53046) Sigs, 11 Jun 96.  
 D Singh (IC-53047) Inf, 11 Jun 96.  
 PS Sidhu (IC-53048) ASC, 11 Jun 96.  
 PP Kishore (IC-53049) Inf, 11 Jun 96.  
 T Tiwari (IC-53051) EME, 11 Jun 96.  
 P Dasgupta (IC-53052) Inf, 11 Jun 96.  
 M Sharma (IC-53053) AC, 11 Jun 96.  
 KS Chadha (IC-53054) Inf, 11 Jun 96.  
 S Jaitly (IC-53055) AC, 11 Jun 96.  
 R Singh (53056) Inf, 11 Jun 96.  
 MR Arland (IC-53057) Inf, 11 Jun 96.  
 G Raizada (IC-53059) Inf, 11 Jun 96.  
 VK Mal (IC-53060) Arty, 11 Jun 96.  
 GV Ramakrishna (IC-53062) Engrs, 11 Jun 96.  
 R Chakraborty (IC-53063) Inf, 11 Jun 96.  
 RK Mishra (IC-53064) EME, 11 Jun 96.  
 R Nair (IC-53065) Mech Inf, 11 Jun 96.  
 PK Bahuguna (IC-53069) MF, 11 Jun 96.  
 IS Venkateswarlu (IC-53082) AEC, 11 Jun 96.  
 SK Singh (IC-53089) AEC, 11 Jun 96.  
 S Mathur (IC-53097) AEC, 11 Jun 96.  
 AK Bhadouriya (IC-53102) MF, 11 Jun 96.  
 C Beecham (IC-52745) Arty, 11 Jun 96.  
 L Saigal (IC-52773) Arty, 11 Jun 96.  
 KC Monnappa (IC-52788) Inf, 11 Jun 96.  
 V Chaudhary (IC-52816) Inf, 11 Jun 96.  
 S Kaushal (IC-52821) Arty, 11 Jun 96.  
 T Sharma (IC-52827) Inf, 11 Jun 96.  
 S Natrajan (IC-52831) Sigs, 11 Jun 96.  
 V Mishra (IC-52845) Arty, 11 Jun 96.  
 VV Singh (IC-52849) Sigs, 11 Jun 96.  
 SS Shekhawat (IC-52871) Inf, 11 Jun 96.  
 R Cuyal (IC-52872) AD Arty, 11 Jun 96.  
 S Thomas (IC-52904) Sigs, 11 Jun 96.  
 S Khanna (IC-52922) Arty, 11 Jun 96.  
 SP Tiwari (IC-52938) Arty, 11 Jun 96.  
 G Prakash (IC-52981) Arty, 11 Jun 96.  
 AS Kanwar (IC-52996) Inf, 11 Jun 96.  
 EE Muthuraj (IC-53016) Engrs, 11 Jun 96.  
 A Chetri (IC-53035) AD Arty, 11 Jun 96.  
 V Kalucha (IC-52890) Sigs, 11 Jun 96.  
 V Kumar (IC-52912) Arty, 11 Jun 96.  
 M. Chauhan (IC-53058) Lt, wef 11-06-96, but for pay & alt. wef 04-08-96.

S D RAI  
 CSO  
 DAMS-FC

No. 574, dated 6th August 1996.—The President is pleased to make the following promotion under AI 37/78 :—

REGULAR ARMY

ARMY DENTAL CORPS

(PERMANENT COMMISSION)

Lt Col to be Col

BL Sapru (DR-10216P), 15-02-95.

Capt to be Major

Narinder Singh (DR-10341Y), 26-8-91.

Lieut to be Capt

Santosh Kumar PU (DS-11791H), 27-9-95.

V JAGANNADHACHARY  
 Brig  
 Dy DGMS



No. 575, dated 30th July 1996.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Major to be Lt Col

N K Biswas (MR-5608Y) AMC, 30 December 1995.

J Singh (MR-04276N) AMC, 08 December 1995.

A T K Rau (MR-04266K) AMC, 08 December 1995.

S Vaishampayan (MR-05474L) AMC, 19 October 1995.

Surg Lt Cdr to be Surg Cdr

E Jamesh (MR-04860L) (75284Z) AMC, 15 October 1995.

Sqn Ldr to be Wg Cdr

S C Aggarwal (MR-04759L) (16891) AMC, 03 December 1995.

S Samaddar (MR-05358H (16366) AMC, 08 December 1995.

Capt to be Major

A S Menon (MR-06030N) AMC, 01-12-95.

R Agarwal (MR-06020K) AMC, 01-12-95.

J S Sandhu (MR-06024A) AMC, 01-12-95.

S Sanghi (MR-06050F) AMC, 01-12-95.

A R Basu (MR-06076W) AMC, 01-12-95.

P K Sharma (MR-06032Y) AMC, 01-12-95.

A G Pandit (MR-6048K) AMC, 01-12-95.

R Bartarya (MR-06078F) AMC, 01-12-95.

M S Gill (MR-06028W) AMC, 01-12-95.

S K Singh (MR-06046Y) AMC, 01-12-95.

V Langer (MR-06066M) AMC, 01-12-95.

T S Mohan (MR-06070P) AMC, 01-12-95.

R Shankar (MR-06080Y) AMC, 01-12-95.

B Nambiar (MR-06072A) AMC, 01-12-95.

A D Sud (MR-06064F) AMC, 01-12-95.

N Singh (MR-06074L) AMC, 01-12-95.

To be Capt (on Prob)

Naveen Chaudhary (MR-06683P) AMC, 06-6-95.

S P Singh (MR-06564Y) AMC, 07-6-94.

Flt Lt (Capt) to be Sqn Ldr (Major)

(Ms) Renu Madan (Singh) (MR-06478N (20574) AMC, 01-12-95.

J. C. SHARMA  
Surg Rear Admiral  
Addl DGAFMS

No. 576, dated 5th August 1996.—The President is pleased to make the following promotion wef the date shown against their names :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt to be Substantive Major

MR Dang (V-403A) RVC, 10 Aug 95.

Vivek Chauhan (V-404H) RVC, 10 Aug 95.

Abhai Singh (V-406N) RVC, 10 Aug 95.

5-224 GI/96

DS Grewal (V-418H) RVC, 10 Aug 95.

SK Agnihotri (V-421H) RVC, 10 Aug 95.

N Kannan (V-427K) RVC, 10 Aug 95.

PB Deshmukha (V-407W) RVC, 16 Nov 95.

CS Ojha (V-408Y) 16 Nov 95.

SK Dixit (V-410W) RVC, 16 Nov 95.

PK Singh (V-422L) RVC, 16 Nov 95.

Arun Sharma (V-424W) RVC, 16 Nov 95.

SVS Sudhakar (V-429P) RVC, 16 Nov 95.

PRAKASH CHAND  
Under Secy.

No. 577, dated 6th August 1996.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMoured CORPS

To be Substantive Risaldar (Religious Teacher)

Naib Risaldar (RT/Pandit) Sohan Lal Sharma (JC-89973 N), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Ved Prakash Pathak (JC-91333X), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Ramesh Kumar (JC-97367F), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Devendra Mishra (JC-97364 N), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Granthi) Didar Singh (JC-97365W), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Krishna Swaroopdhar Dwivedi (JC-128613L), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Kapil Dev Pandey (JC-116061 W), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Rajender Kaushik (JC-116062 Y), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Suresh Chander Tiwari (JC-119691F), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Dharamvir Sharma (JC-119690 Y), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Granthi) Pyara Singh (JC-120473P), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Granthi) Surinder Singh (JC-120474 X), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Shiv Kumar Sharma (JC-128614N), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Ram Mehar Sharma (JC-128612H), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Shiv Prakash Manori (JC-128488M), 01 Jan 96.

Naib Risaldar (RT/Pandit) Narendra Prasad Purohit (JC-130087W), 01 Jan 96.

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar Clerks

Nb Sub (Clk) Narendra Singh Gurung (JC-206638M), 1st May 1996.

Nb Sub (Clk) M Sathiah (JC-206639P), 1st Jun 1996.

## To be substantive Subedar

Nb Sub Raj Kumar Sharma (JC-189696X), 01st Apr 1996.

Nb Sub Sohan Ram (JC-211611Y), 01st Apr 1996.

Nb Sub Hira Singh (JC-181416K), 01st Jun 1996.

Nb Sub Shish Pal Singh (JC-211610W), 01st Jun 1996.

Nb Sub Bhagat Singh Negi (JC-206660X), 01st Jun 1996.

Nb Sub Hum Bahadur Rana (JC-206612X), 01st Jun 1996.

Nb Sub Bhanwar Singh (JC-216434N), 01st Jun 1996.

Nb Sub Jaspal Singh Chaudhari (JC-206615L), 01st Jun 1996.

Nb Sub Vishwanath Singh (JC-219228P), 01st Jun 1996.

Nb Sub Satyabhan Singh (JC-219269Y), 01st Jun 1996.

Nb Sub Kartar Singh (JC-225081A), 01st Jun 1996.

Nb Sub Amar Singh (JC-418022P), 01st Jul 1996.

Nb Sub Chatar Singh Sarangdevot (JC-418050F), 01st Jul 1996.

## To be Naib Subedar

Hav Bhagirath (No. 2671419Y now JC-418635P), 22nd Apr 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Nov 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Kunj Lal (No. 3976454A now JC-418636X), 25th May 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Nov 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Beerbal Ram (No. 14901349W now JC-418637A), 17th Apr 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Dec 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Patil Chandrakant Shivagonda (No. 14900104N now JC-418638H), 20th Apr 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Dec 1995 without effect on pay and allowances).

Hav Ravinder Singh (No. 3168796X now JC-418639L), 05th Jun 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Feb 1996 without effect on pay and allowances).

Hav Rajendra Singh (No. 2871603N now JC-418640A), 01st Jun 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24th Mar 1996 without effect on pay and allowances).

Hav Bishan Bahadur Magar (No. 5747545K now JC-418641H), 25th May 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 24th Mar 1996 without effect on pay and allowances).

Hav Man Singh (No. 4900641Y now JC-418421L), 17th Jun 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 08th Apr 1996 without effect on pay and allowances).

Hav Bharat Singh (No. 3975152F now JC-418643N), 10th May 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 14th Apr 1996 without effect on pay and allowances).

Hav Jagdish Singh Shekhawat (No. 2870965H now JC-418644W), 01st Jun 1996.

Hav Mo i Singh (No. 2871681L now JC-418645Y), 01st Jun 1996.

Hav Heer Singh (No. 2871837X now JC-418646F), 07th Jun 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01st Jun 1996 without effect on pay and allowances).

R. G. HEGDE  
Under Secy.

No. 578, dated 24th July 1996.—The President is pleased to make the following promotions :—

## (REGULAR ARMY)

## ARMY MEDICAL CORPS

## To be Naib Subedar (Nursing Assistant)

Havildar Sukhbir Singh (No. 13934179F now JC-691565 N), 24th Jul 1995.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jul 1995 without effect on pay and alces.)

Havildar Gurdev Singh (No. 13937038K now JC-691566 W), 17th Jan 1996.\*

Havildar Chandra Mohan Singh Rawat (No. 13937040P now JC-691567Y), 18th Mar 1996.\*

Havildar Raghunath (No. 13937072X now JC-691568F), 30th Mar 1996.\*

\*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 1995 without effect on pay and alces.)

Havildar Dhyaneshwar Pandhari Gadge (No. 13937131 Y now JC-691569K), 02nd Feb 1996.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Dec 1995 without effect on pay and alces.)

Havildar Sumer Singh Sekhawat (No. 13937282X now JC-691570Y), 13th Feb 1996.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jan 1996 without effect on pay and alces.)

Havildar Kamidi Bhyarava Swamy (No. 13936927H now JC-691571F), 23rd Apr 1996.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 27 Jan 1996 without effect on pay and alces.)

Havildar Amal Kumar Das (No. 13937032W now JC-691572K), 15th Apr 1996.\*\*

Havildar Surendra Prasad Singh (No. 13937438K now JC-691573M), 29th Mar 1996.\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 1996 without effect on pay and alces.)

Havildar Cheluvappa B (No. 13937529N now JC-691574 P), 20th Apr 1996.\*\*\*

Havildar Prabhu Singh (No. 13937575H now JC-691575 X), 24th May 1996.\*\*\*

Havildar Bote Dattatray Bhau (No. 13937577N now JC-691576A), 23rd May 1996.\*\*\*

Havildar Mithileshwar Sharma (No. 13937610A now JC-691577H), 17th Apr 1996.\*\*\*

Havildar G Somanathen Nair (No. 13937664F now JC-691578L), 18th Apr 1996.\*\*\*

\*\*\* (Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Mar 1996 without effect on pay and allces.)

Havildar Mithileshwar Prasad Singh (No. 13937638A now JC-691579N), 12th May 1996.@

Havildar Milap Chand (No. 13937704X now JC-691580H), 06th May 1996.@

Havildar Bhrihu Nath Pandey (No. 13937712W now JC-691581L), 06th Jun 1996.@

Havildar Sanwormal Bhargav (No. 13937752X now JC-691582N), 25th May 1996.@

Havildar Vishwanath Jayaswal (No. 13937843F now JC-691583W), 02nd May 1996.@

Havildar Genpuri Goswami (No. 13937854N now JC-691584Y), 15th May 1996.@

Havildar Toga Ram Rolen (No. 13937832A now JC-691585F), 03rd Jun 1996.@

Havildar Bandaru Narasimha Rao (No. 13937128Y now JC-691586K), 30th May 1996.@

Havildar Mohanan K (No. 13937510P now JC-691587M), 12th Apr 1996.@

Havildar Jagdish Singh Jodha (No. 13937527H now JC-691588P), 17th May 1996.@

Havildar Gurmit Singh (No. 13937893M now JC-691589X), 13th May 1996.@

Havildar Shiv Mangal Ram (No. 13937915A now JC-691590M), 14th May 1996.@

Havildar Shashi Kant Prasad Sinha (No. 13937920L now JC-691591P), 19th May 1996.@

Havildar Sukhbir Singh (No. 13937972F now JC-691592X), 09th May 1996.@

Havildar Swapan Kumar Pramanik (No. 13937950H now JC-691593A), 30th May 1996.@

@ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 06 Apr 1996 without effect on pay and allces.)

Havildar Jadu Ram Dalui (No. 13937966N now JC-691594H), 08th Jun 1996.

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Jun 1996 without effect on pay and allces.)

To be Naib Subedar (Ambulance Assistant)

Havildar Vinod Albert Bhatti (No. 13935558K now JC-691595L), 15th May 1996.£

Havildar Harjinder Singh (No. 13935724M now JC-691596N), 09th May 1996.£

£ (Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 1996 without effect on pay and allces.)

C P JOSHI  
Lt Col

Jt. Dir Med Services (Trg.)

#### (NAVY BRANCH)

No. 579, dated 30th July 1996.—The President is pleased to promote Shri M. Annaji Rao, Assistant Armament Supply Officer to the post of Deputy Armament Supply Officer Grade II w.e.f. 22 Jun 96.

He will be on probation for a period of two years.

D. R. ACHARYA,  
Commodore  
Director of Civilian Personnel

#### AIR FORCE

No. 580, dated 31st July 1996.—The President is pleased to make the following substantive promotion :—

#### INDIAN AIR FORCE

#### AE(M) & AE(L) BRANCH

Fg Offr to be Subs Flt Lt

ER Surendreran (21080), 09 March 1995.

AKS Das (21081), 09 March 1995.

NA Badrinath (21082), 09 March 1995.

V Devraj (21083), 09 March 1995.

VP Borse (21084), 09 March 1995.

RR Pant (21085), 09 March 1995.

GK Mahesh (21086), 09 March 1995.

ERS Raju (21162), 09 March 1995.

SV Chandra (21174), 09 March 1995.

RA Shankar (21195), 09 March 1995.

A Kumar (21197), 09 March 1995.

KA Rao (21175), 09 March 1995.

#### AE(L) BRANCH

A Singh (20837), 09 March 1995.

K Satish (21089), 09 March 1995.

R Makhija (21098), 09 March 1995.

PR Pathak (21102), 09 March 1995.

PR Patel (21103), 09 March 1995.

A Gaur (21104), 09 March 1995.

VK Chaturvedi (21105), 09 March 1995.

PS Saini (21106), 09 March 1995.

A Sidhu (21107), 09 March 1995.

P G Mahant (21109), 09 March 1995.

S Mahrotra (21110), 09 March 1995.

A Agarwal (21111), 09 March 1995.

R Shrivastava (21112), 09 March 1995.

FF Nabi (21113), 09 March 1995.

Babu Paul (21114), 09 March 1995.

S Chatterjee (21115), 09 March 1995.

PS Dayanand (21116), 09 March 1995.

R Hussain (21184), 09 March 1995.

RK Verma (21191), 09 March 1995.

CS Chawla (21192), 09 March 1995.

S R Tapashetti (21198), 09 March 1995.

MK Singh (21732), 09 March 1995.

#### AE(L) Branch

Fg Offr to be Subs Flt Lt

S Sharma (19736), w.e.f. 11 Sep 92.

#### Edn. BRANCH

Fg Offr to be Subr Flt Lt

SK Jaiswal (20210), 16 June 1995.

KG Senthil (20211), 16 June 1995.

RR Lali (20212), 16 June 1995.

SJ Shankar (20213), 16 June 1995.  
 RD Mohan (20214), 16 June 1995.  
 MK Baranwal (20216), 16 June 1995.  
 MS Rawat (20217), 16 June 1995.

## F(P) Branch

Flt Lt to be Sqd Ldr

J N Shashi Dhar (17439), 08 June 1995.  
 OM Nirmal Kumar (17440), 08 June 1995.  
 AS Kalra (17442), 08 June 1995.  
 AK Singh (17443), 08 June 1995.  
 SM Mane (17444), 08 June 1995.  
 SK Jha (17445), 08 June 1995.  
 C Srinivas (17447), 08 June 1995.  
 G Singh (17448), 08 June 1995.  
 BS Rawat (17450), 08 June 1995.  
 SW Kharwadakar (17451), 08 June 1995.  
 UK Pillai (17452), 08 June 1995.  
 M Rawat (17453), 08 June 1995.  
 SPS Sisodiya (17454), 08 June 1995.  
 NN Reddy (17455), 08 June 1995.  
 KS Singh (17457), 08 June 1995.  
 SS Kaushal (17458), 08 June 1995.  
 D Sharma (17459), 08 June 1995.  
 N Talwar (17461), 08 June 1995.  
 N Gowami (17462), 08 June 1995.  
 DK Patnaik (17464), 08 June 1995.  
 PK Sharma (17465), 08 June 1995.  
 SR Reddy (17466), 08 June 1995.  
 AK Misra (17467), 08 June 1995.  
 VS Sawalkar (17468), 08 June 1995.  
 TV Kulkarni (17469), 08 June 1995.  
 YS Sidhu (17470), 08 June 1995.  
 AP Srivastava (17471), 08 June 1995.  
 SK Mittal (17472), 08 June 1995.  
 AV Mokashi (17473), 08 June 1995.  
 GKVKD Rao (17474), 08 June 1995.  
 Amrit Pal Singh (17475), 08 June 1995.

## ADM BRANCH

Fg Offr to be Subs Flt Lt

SP Singh (20185), 16 June 1995.  
 JS Bhalla (20186), 16 June 1995.  
 RN Magadum (20187), 16 June 1995.  
 RV Ram Kishore (20188), 16 June 1996.  
 M Arivazhagan (20189), 16 June 1995.  
 KN Yadav (20190), 16 June 1995.  
 S Kaul (20191), 16 June 1995.  
 MVN Sai (20192), 16 June 1995.  
 B K Sharma (20193), 16 June 1995.

J Venkateswaran (20194), 16 June 1995.  
 SK Janardhanan (20195), 16 June 1995.  
 Sheenivas (20196), 16 June 1995.  
 C Banerjee (20197), 16 June 1995.  
 N V Kumar (20198), 16 June 1995.  
 K Hurshan (20199), 16 June 1995.  
 B Viswanathan (20200), 16 June 1995.  
 RK Chhabra (20201), 16 June 1995.  
 SK Sahoo (20202), 16 June 1995.  
 MS Jayasimha (20204), 16 June 1995.  
 S Siva Kumar (20205), 16 June 1995.  
 RKS Sisodia (20206), 16 June 1995.  
 SK Jain (20207), 16 June 1995.

Flt Lt to be Substantive Sqd Ldr

S Badyal (17478), 08 June 1995.  
 R Sharma (17479), 08 June 1995.  
 R Venkataraman (17480), 08 June 1995.  
 A Sachdev (17481), 08 June 1995.  
 J Jose (17482), 08 June 1995.  
 RK Chitka (17483), 08 June 1995.  
 D Mohbe (17484), 08 June 1995.  
 S Chaudhri (17485), 08 June 1995.  
 KK Kundu (17486), 08 June 1995.  
 YR Reddy (17487), 08 June 1995.  
 AR Thakkar (17488), 08 June 1995.  
 J P S Sidhu (17489), 08 June 1995.  
 SS Bishat (17490), 08 June 1995.  
 JS Bedi (17491), 08 June 1995.  
 SK Pai (17492), 08 June 1995.  
 S Rohinwal (17493), 08 June 1995.  
 CGH Khan (17494), 08 June 1995.  
 PS Yadav (17495), 08 June 1995.  
 S Bhagwan (17496), 08 June 1995.  
 PK Chandola (17497), 08 June 1995.  
 K Anand (17498), 08 June 1995.  
 M Mahapatra (17499), 08 June 1995.  
 M Sharma (17500), 08 June 1995.  
 JC Dhalatia (17501), 08 June 1995.  
 M Narayanan (17502), 08 June 1995.  
 SK Naithani (17503), 08 June 1995.  
 A S Grover (17504), 08 June 1995.  
 AS Gill (17505), 08 June 1995.  
 S Murli (17506), 08 June 1995.  
 A Sharma (17507), 08 June 1995.  
 VK Yadav (17508), 08 June 1995.  
 SC Tiwari (17509), 08 June 1995.  
 KS Sudhakar (17510), 08 June 1995.  
 RS Dhamun (17511), 08 June 1995.  
 RK Naithani (17513), 08 June 1995.

## F(P) BRANCH

Fg Offr to be Subs Flt Lt

Fg Offr V Pathak (20971), 15 December 1995.  
 R G Krishnan (20972), 15 December 1995.  
 A Tripathi (20973), 15 December 1995.  
 P Goel (20974), 15 December 1995.  
 D Yadav (20976), 15 December 1995.  
 J Singh (20977), 15 December 1995.  
 A Bhushan (20978), 15 December 1995.  
 J Nambiar (20979), 15 December 1995.  
 I Singh (20980), 15 December 1995.  
 V S Mahida (20981), 15 December 1995.  
 A Saxena (20983), 15 December 1995.  
 A Pant (20984), 15 December 1995.  
 N Sharma (20985), 15 December 1995.  
 G A K Mathur (20986), 15 December 1995.  
 R Prem (20987), 15 December 1995.  
 D D Singh (20989), 15 December 1995.  
 G K J Reddy (20990), 15 December 1995.  
 S K Kashyap (20991), 15 December 1995.  
 B Choudhary (20992), 15 December 1995.  
 H Singh (20993), 15 December 1995.  
 M Singh (20995), 15 December 1995.  
 A Chauhan (20997), 15 December 1995.  
 K Shandilya (20998), 15 December 1995.  
 A Joshi (20999), 15 December 1995.  
 N Raina (21000), 15 December 1995.  
 V Rawat (21001), 15 December 1995.  
 G Kago (21002), 15 December 1995.  
 R K Nagar (21003), 15 December 1995.  
 C S Saini (21004), 15 December 1995.  
 S K Singh (21005), 15 December 1995.  
 A Bhalla (21006), 15 December 1995.  
 G S Chauhan (21007), 15 December 1995.  
 V Gaur (21008), 15 December 1995.  
 J Yadav (21009), 15 December 1995.  
 U Kundu (21010), 15 December 1995.  
 J S Lohokna (21011), 15 December 1995.  
 A Srivastava (21012), 15 December 1995.  
 S Mittra (21013), 15 December 1995.  
 H S Malhi (21014), 15 December 1995.  
 A Sharma (21015), 15 December 1995.  
 A K Singh (21016), 15 December 1995.  
 A K Gupta (21017), 15 December 1995.  
 H D Parshotam (21019), 15 December 1995.  
 M Nema (21020), 15 December 1995.  
 S K Saini (21021), 15 December 1995.  
 A Ranjan (21022), 15 December 1995.

S Mishra (21023), 15 December 1995.  
 S Bedi (21024), 15 December 1995.  
 D S K Vasant (21025), 15 December 1995.  
 C Sharda (21026), 15 December 1995.  
 P S Prohit (21027), 15 December 1995.  
 N P Singh (21028), 15 December 1995.  
 R Vishoy (21029), 15 December 1995.  
 J Singh (21030), 15 December 1995.  
 A Jyoti (21031), 15 December 1995.  
 S Sharma (21032), 15 December 1995.  
 S Bali (21033), 15 December 1995.  
 N Venket (21034), 15 December 1995.

## F(N) BRANCH

Fg Offr to be Subs Flt Lt

Fg Offr L K Jain (21036), 15 December 1995.  
 R N Chakraborty (21037), 15 December 1995.  
 V Aggarwal (21038), 15 December 1995.  
 R S Bhatia (21039), 15 December 1995.  
 R M Kumaraswamy (21040), 15 December 1995.  
 D Suri (21041), 15 December 1995.  
 S K Singh (21042), 15 December 1995.  
 P Sarvanan (21043), 15 December 1995.  
 A Banerjee (21044), 15 December 1995.  
 N Harikrishna (21045), 15 December 1995.  
 V Chandra (21046), 15 December 1995.  
 B Saha (21047), 15 December 1995.  
 B A Annikkate (21048), 15 December 1995.  
 V Krishnappa (21049), 15 December 1995.

## AE(L) BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

A Aggarwal (18015), 18 Aug 1995.  
 R P Phadtare (18022), 18 Aug 1995.  
 S Kant (18012), 18 Aug 1995.  
 H S R K Iyer (18023), 18 Aug 1995.  
 A U Khan (18011), 18 Aug 1995.  
 G Dasgupta (18066), 18 Aug 1995.  
 A Saraswat (18021), 18 Aug 1995.  
 R B Goirola (18019), 18 Aug 1995.  
 R R Patnaik (18020), 18 Aug 1995.  
 A K Singh (18065), 18 Aug 1995.  
 K V B Padmadas (18013), 18 Aug 1995.  
 S S Bisht (18018), 18 Aug 1995.  
 K K Verma (18017), 18 Aug 1995.  
 S Sen (17833), 18 Aug 1995.  
 R Puttur (18016), 18 Aug 1995.

## AE(L) BRANCH

Fg Offr to be Substantive Flt Lt

D Singh (BC-19763), 04 February 1995.

## ADM BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

SK Mishra (14283)—17 April 1995.

## F(P) BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

J Chowdhury (17171)—17 Apr 1995.

A Patwardhan (17148)—28 May 1994.

AK Mehrotra (16807)—04 Jun 1993.

R Kumar (16640)—07 July 1994.

## AE (M) BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

NC Chattopadhyay (18417)—18 Aug 1995.

S Jain (18005)—18 Aug 1995.

MV Kumar (18416)—18 Aug 1995.

AG Manoj Kumar (18006)—18 Aug 1995.

AK Verma (18063)—18 Aug 1995.

M Gurjar (17998)—18 Aug 1995.

P Kumar (18002)—18 Aug 1995.

VD Sagdeo (18000)—18 Aug 1995.

MH Kekre (18062)—18 Aug 1995.

DK Dodeja (18024)—18 Aug 1995.

AA Gadkari (17997)—18 Aug 1995.

AK Singh (18025)—18 Aug 1995.

SB Paise (18007)—18 Aug 1995.

SB Patankar (18009)—18 Aug 1995.

RS Subramaniam (18064)—18 Aug 1995.

A Mudaliar (18060)—18 Aug 1995.

KS Karki (18008)—18 Aug 1995.

S Rao (18003)—18 Aug 1995.

DK Lahiry (18001)—18 Aug 1995.

RP Singh (18061)—18 Aug 1995.

S Kumar (18067)—18 Aug 1995.

PRA Chavan (18010)—18 Aug 1995.

## Lgs Branch

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

N Sabharwal (17515)—08 June 1995.

T Rampal (17516)—08 June 1995.

S Ghosh (17517)—08 June 1995.

PM Nagraj (17518) 08 June 1995.

SK Jain (17519)—08 June 1995.

MN Bahuguna (17520)—08 June 1995.

K Paul (17521)—08 June 1995.

X Savooji (17522)—08 June 1995.

RK Yadav (17523)—08 June 1995.

RP Gaiindhar (17524)—08 June 1995.

RP Gaiindhar (17524)—08 June 1995.

J Kumar (17525)—08 June 1995.

S Chacko (17526)—08 June 1995.

PRD Padua (17527)—08 June 1995.

R Mukherjee (17528)—08 June 1995.

KR Ramachandran (17529)—08 June 1995.

PR Dung Dung (17530)—08 June 1995.

P Garg (17531)—08 June 1995.

S Bahiri (17532)—08 June 1995.

## F(P) BRANCH

FG Offr to be Subs Flt Lt

FG Offr SS Chauhan (20996)—15 December 1995.

## AE(M) BRANCH

FG Offr to be Subs Flt Lt

LVN Rao (20883)—10 Sep 95.

PK Ashok Kumar (20884)—10 Sep 95.

P Arora (20885)—10 Sep 1995.

Kamal Dhagat (20886)—10 Sep 1995.

KM Cherian (20887)—10 Sep 95.

CB Prameswaran (20888)—10 Sep 95.

R Ashok Kumar (20889)—10 Sep 95.

BR Srinivas (20890)—10 Sep 95.

V Sriram (20891)—10 Sep 95.

S Srinivas (20892)—10 Sep 95.

S Naik (20893)—10 Sep 95.

P Kumashankar (20894)—10 Sep 95.

MS Chakravarti (20895)—10 Sep 95.

J Balakrishnan (20896)—10 Sep 95.

PK Gupta (20897)—10 Sep 95.

ERK Phani (20898)—10 Sep 95.

Rajnish (20899)—10 Sep 95.

AK Notey (20900)—10 Sep 95.

S Singh (20901)—10 Sep 95.

A Dhiman (20903)—10 Sep 95.

P Joshi (20904)—10 Sep 95.

SR Nimbharkar (20905)—10 Sep 95.

EV Sanjay (20906)—10 Sep 95.

J Victor (20907)—10 Sep 95.

R Kumar (20937)—12 Sep 95.

MS Lolaksha (20938)—12 Sep 95.

D Pillai (20944)—12 Sept 1995.

## AE (L) BRANCH

FG Offr to be Subs Flt Lt

N Rastogi (20908)—10 Sep 95.  
 SS Vishambhar (20909)—10 Sep 95.  
 R Dogra (20910)—10 Sep 95.  
 RN Mishra (20911)—10 Sep 95.  
 R Nair (20912)—10 Sep 95.  
 JA Patil (20914)—10 Sep 95.  
 K. Singh (20915)—10 Sep 95.  
 GS Rao (20916)—10 Sep 95.  
 S Paul (20918)—10 Sep 95.  
 NS Pramod (20919)—10 Sep 95.  
 R Mehta (20920)—10 Sep 95.  
 P Kumar (20921)—10 Sep 95.  
 Y Srinivas (20922)—10 Sep 95.  
 TR Shivaram (20923)—10 Sep 95.  
 S Verghese (20924)—10 Sep 95.  
 R Prabhu (20925)—10 Sep 95.  
 S Evan (20926)—10 Sep 95.  
 V Vijai (20927)—10 Sep 95.  
 R Satish (20928)—10 Sep 95.  
 M Sharma (20929)—10 Sep 95.  
 PA Bhawalkar (20931)—10 Sep 95.  
 KS Patil (20932)—10 Sep 95.  
 D Adhikari (20934)—10 Sep 95.  
 SS Pathania (20935)—10 Sep 95.  
 PC Bhatt (20936)—11 Sep 95.  
 RR Gupta (20938)—14 Sep 95.  
 G Joshipura (20940)—16 Sep 95.  
 P Sharma (20945)—17 Sep 95.  
 RS Bal (20946)—18 Sep 95.

## ADM BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

LS Rathore (BC-17251)—24 Sep 95.  
 VP Sharma (BC-17252)—24 Sep 95.  
 PV Sreedharan (BC-17258)—24 Sep 95.  
 RS Latke (BC-17260)—24 Sep 95.  
 GP Patra (BC-17248)—24 Sep 95.

## LGS BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

MS Dwivedi (BC-17254)—24 Sep 95.

## ACCTS BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

RU Keskar (BC-17253)—24 Sep 95.  
 VA Vaidyanathan (BC-17259)—24 Sep 95.

## EDN BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

NE Sankara (BC-17247)—24 Sep 95.  
 P Srinivasan (17249)—24 Sep 95.

## ADM BRANCH

FG Offr to be Subs Flt Lt

FG Offr PNS Nair (20579)—15 Dec 95.  
 A Kapoor (20580)—15 Dec 95.  
 BJ Mammen (20581)—15 Dec 95.  
 M Rathinavel (20582)—15 Dec 95.  
 A Kapur (20583)—15 Dec 95.  
 NS Bajwa (20584)—15 Dec 95.  
 SR Sayil (20585)—15 Dec 95.  
 R Venkataraman (20586)—15 Dec 95.  
 BK Tiwari (20587)—15 Dec 95.  
 KP Solanki (20588)—15 Dec 95.  
 JS Guru (20589)—15 Dec 95.  
 PS Basanti (20590)—15 Dec 95.  
 NK Singh (20591)—15 Dec 95.  
 U Manoj (20592)—15 Dec 95.  
 RS Sisodia (20593)—15 Dec 95.  
 P D'Souza (20594)—15 Dec 95.  
 VSS Madan (20595)—15 Dec 95.  
 AG Sohna (20596)—15 Dec 95.  
 N Nagarajan (20597)—15 Dec 95.  
 SK Singh (20598)—15 Dec 95.  
 BS Bajwa (20599)—15 Dec 95.  
 S Dhaka (20600)—15 Dec 95.  
 SM Peters (20601)—15 Dec 95.  
 MK Sharma (20602)—15 Dec 95.  
 M Verghese (20603)—15 Dec 95.  
 JP Suresh (20604)—15 Dec 95.  
 B Kumar (20605)—15 Dec 95.  
 A Kapur (20606)—15 Dec 95.  
 N CS Vishnu (20608)—15 Dec 95.  
 RS Sheoran (20609)—15 Dec 95.  
 V Banerjee (20610)—15 Dec 95.  
 P Mishra (20611)—15 Dec 95.

M Saxena (20612)—15 Dec 95.

AK Singh (20613)—15 Dec 95.

RG Nakil (20614)—15 Dec 95.

#### LGS BRANCH

FG Offr to be Subs Flt Lt

FG Offr K Rastogi (20615)—15 Dec 95.

PVN Sharma (20616)—15 Dec 95.

N Narendra (20617)—15 Dec 95.

A Banerjee (20618)—15 Dec 95.

R Malik (20619)—15 Dec 95.

PK Gupta (20620)—15 Dec 95.

CS Bhatt (20621)—15 Dec 95.

N Cunchala (20622)—15 Dec 95.

V Menon (20623)—15 Dec 95.

R Bhandari (20624)—15 Dec 95.

Bhagwat (20625)—15 Dec 95.

M Menon (20626)—15 Dec 95.

#### ACCTS BRANCH

FG Offr to be Subs Flt Lt

FG Offr SK Sinha (20627)—15 Dec 95

SK Singh (20628)—15 Dec 95.

R Srivastava (20629)—15 Dec 95.

CI Mathew (20630)—15 Dec 95.

R Kumar (20631)—15 Dec 95.

MK Mehra (20632)—15 Dec 95.

CA Thomas (20633)—15 Dec 95.

J Thomas (20634)—15 Dec 95.

A Bhatnagar (20635)—15 Dec 95.

SK Murthy (20636)—15 Dec 95.

P Mehta (20637)—15 Dec 95.

A Arora (20638)—15 Dec 95.

A North (20639)—15 Dec 95.

P Kala (20640)—15 Dec 95.

SK Tripathi (20641)—15 Dec 95.

S Nathan (20642)—15 Dec 95.

RJ Sanjeev (20643)—15 Dec 95.

#### AE (L) BRANCH

Fg Offr to be Subs Flt Lt

CI Mohan Das (BC-18949), 18 Jul 1993.

B Bhattacharya (BC-18950), 18 Jul 1993.

DR Sharma (BC-18951), 18 Jul 1993.

TS Chauhan (BC-18952), 18 Jul 1993.

AT Phalcunan (BC-18953), 18 Jul 1993.

Banarsi Lal (BC-18954), 18 Jul 1993.

SC Arora (BC-18955), 18 Jul 1993.

DP Sharma (18956), 18 Jul 1993.

HS Ahira (BC-18957), 18 Jul 1993.

RS Pathania (BC-18958), 18 Jul 1993.

N Krishnamurthy (BC-18959), 18 Jul 1993.

VS Parawana (BC-18960), 18 Jul 1993.

I Barboza (BC-18961), 18 Jul 1993.

T Tripathy (BC-18963), 18 Jul 1993.

KR Kalhadure (BC-18964), 18 Jul 1993.

RC Bhojwani (BC-18965), 18 Jul 1993.

NP Shukla (BC-18966), 18 Jul 1993.

Chhote Lal (BC-18967), 18 Jul 1993.

MS Sran (BC-18968), 18 Jul 1993.

DP Sinha (BC-18969), 18 Jul 1993.

R Prasad (BC-18970), 18 Jul 1993.

GS Dubey (BC-18971), 18 Jul 1993.

NP Nam (BC-18972), 18 Jul 1993.

BS Negi (BC-18973), 18 Jul 1993.

AS Sooch (BC-18974), 18 Jul 1993.

C Manjhi (BC-18975), 18 Jul 1993.

GR Sharma (BC-18976), 18 Jul 1993.

VK Bishnoi (BC-18977), 18 Jul 1993.

KN Prasad (BC-18978), 18 Jul 1993.

#### F (P) BRANCH

Flt Lt to be Subst Sqn Ldr

Flt Lt AP Singh (17695), 21 December 1995.

P Rishi (17696), 21 December 1995.

TP Nanda (17697), 21 December 1995.

Z Thomas (17698), 21 December 1995.

V Singh (17699), 21 December 1995.



M Rajkumar (17701), 21 December 1995.

PR Singh (17702), 21 December 1995.

SKB Nair (17703), 21 December 1995.

U Kundra (17704), 21 December 1995.

S Nastak (17705), 21 December 1995.

PE Patange (17706), 21 December 1995.

NB Sathe (17708), 21 December 1995.

V Sivaraman (17709), 21 December 1995.

SP Wagle (17710), 21 December 1995.

P Bhardwaj (17711), 21 December 1995.

SM Wagle (17712), 21 December 1995.

S Kumar (17713), 21 December 1995.

GAP Babu (17714), 21 December 1995.

MC Misra (17715), 21 December 1995.

Sudhir Maingi (17716), 21 December 1995.

SK Sharma (17717), 21 December 1995.

WA Devotta (17718), 21 December 1995.

M Tewari (17719), 21 December 1995.

N Santosh (17720), 21 December 1995.

S Gupta (17721), 21 December 1995.

G Thomas (17722), 21 December 1995.

VM Raghunath (17723), 21 December 1995.

S Chandrasekhar (17726), 21 December 1995.

NP Ranjit (17727), 21 December 1995.

B Ramesh (17728), 21 December 1995.

S Arora (17729), 21 December 1995.

A Nassand (17730), 21 December 1995.

SGK Verma (17731), 21 December 1995.

#### F (P) BRANCH

Fg Offr to be Subst Flt Lt

SK Verma (19895), 17 December 1993.

A Shetty (19913), 17 December 1993.

V Joshi (20493), 16 December 1994.

#### LGS BRANCH

Fg Offr to be Subs Flt Lt

R Siddiqui (20208), 16 June 1995.

L Unnikrishnan (20209), 16 June 1995.

Flt Lt to be Subst Sqn Ldr

Flt Lt VP Singh (BC-17304), 24 December 1995.

AN Bhaumik (BC-17305), 24 December 1995.

SS Rai (BC-17306), 24 December 1995.

UC Kohli (BC-17308), 24 December 1995.

#### EDN BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

Flt Lt CN Thampi (BC-17301), 24 December 1995.

#### MET BRANCH

Flt Lt to be Subs Sqn Ldr

Flt Lt AK Chanda (BC-17300), 24 December 1995.

CS Pandher (BC-17303), 24 December 1995.

M. H. SIDDIQUI  
Sqn Ldr  
ADPO-3(D)

No. 581, dated 28th June 1996.—Consequent on attaining the age of superannuation, Shri S. S. Ghei, CSS, Under Secretary, Ministry of Defence retired from Government Service with effect from 30-6-1996.

The President is pleased to permit Shri Darshan Singh, Private Secretary, Ministry of Defence, to retire voluntarily from Govt. service w.e.f. 30-6-96 (A/N).

DR. A. R. GOYAL  
Under Secy.

No. 582, dated 9th August 1996.—On attaining the age of superannuation i.e. 58 years on 01-08-1996 (Date of Birth being 01-08-1938) Shri Pra'ap Singh, Senior SSO-II, Joint Cipher Bureau retired from service with effect from 31-07-1996 (A/N) and transferred to Pension Establishment w.e.f. 01-08-1996 (F/N).

RENU K RAIU  
Dy Chief Administrative Officer

#### DEFENCE RESEARCH & DEVELOPMENT SERVICE

No. 583, dated 01st August 1996.—Consequent upon attaining the age of superannuation Dr. S. K. Sharma, Scientist 'F', Director O&M and Rajbhasha, R&D HQrs., New Delhi retired from service on 31-07-1996 (A/N) and transferred to Pension Establishment with effect from 01-08-1996 (F/N).

D. J. ANDREW  
Asstt. Director (Pers)

## (ARMY BRANCH)

No. 584, dated 30th July 1996.—The President is pleased to accept the Resignation of Commission of the undermentioned officer wef 14 July 95 (A/N).

## (REGULAR ARMY)

## PERMANENT COMMISSION

Capt (Miss) Anjali Saighal (MR-06324F) AMC, 14 Jul 95 (A/N).

J. C. SHARMA  
Surg Rear Admiral  
Addl DGAFMS

No. 585, dated 2nd August 1996.—In Gazette of India Notification No. 366 dated 25 Mar 94, published in Gazette of India Ser No. 12 dated 07 May 94, under the heading 'REGIMENT OF ARTILLERY'.

Below 'To be Substantive Subedar (AIG)'

The following amendment may please be made :—

Nb Sub Mukhtar Singh (JC-190554M), For—1st Jan 1994

Read—1st Dec 1993.

PRAKASH CHAND  
Under Secy.